



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3—जुलाई 9, 2010 (आषाढ़ 12, 1932)

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3—JULY 9, 2010 (ASADHA 12, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(रु. 9,300--34,800/- + 4,800/- रु. ग्रेड वेतन) में रक्षा मंत्री (श्री ए के अन्तोनी) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

नई दिल्ली, दिनांक 3 जुलाई 2010

के मुरली
अवर सचिव

सं. 335, दिनांक 01 जून 2010--राष्ट्रपति, श्री नवीन कुमार, आई टी एस (1995) का दूरसंचार विभाग से स्थानांतरण होने पर उन्हें 08 मार्च 2010 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 07 मार्च 2015 तक, अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 मार्च, 2010 के का ज्ञा सं. 3/4/2009-सी एस-1(डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव श्री आर सी गुप्ता का नाम वर्ष 2009 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप उन्हें 12 मार्च 2010 (अपराह्न) से नियमित आधार पर रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, श्री हिमांक कोठियाल, आई आई एस (93) को दिनांक 25 मई 2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक अथवा मंत्री के कार्यभार छोड़ने तक, इनमें से जो भी पहले हो, वेतन बैंड-2

(थल सेना विभाग)

सं. 336, दिनांक 01 जून 2010--थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

मेजर के पद पर

(डीएस-12326एच) स्मिता एम कदम, 09 जनवरी 2009

(पूर्व पूर्ण वेतन आयोग सेवा की हैसियत ग्रहण करते हुए वेतन एवं पदोन्नति के लिए पूर्व दिनांकित ज्येष्ठता दिनांक 12 दिसम्बर 2000 से

प्रभावित होगी जिसमें पांच वर्ष दिनांक 07 दिसम्बर 1994 से 06 दिसम्बर 1999 तक कप्तान के पद की अवधि तथा 28 दिन की मेजर के पद की सेवांत छुट्टी की अवधि उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी। उनकी मेजर के पद पर ज्येष्ठता 12 जून 2008 से गिनी जाएगी)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

(डीएस-12273पी) मुकेश कुमार, 07 जनवरी 2008

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 07 जुलाई 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

(डीएस-12318के) अजय साहनी, 02 जनवरी 2009

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 02 जुलाई 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

(डीएस-12345एन) आदर्श शर्मा, 17 फरवरी 2009

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 अगस्त 2008 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(04 जुलाई 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

(डीएस-12269एम) परमिंदर कौर, 04 जनवरी 2008

(वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 04 जुलाई 2007 से दी जाती है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 माह पहले से दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

(28 जून 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहां तक इसका संबंध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।)

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

सेना शाखा

सं. 337, दिनांक 01 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष यथासंशोधित थल सेना अधीन निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेन्ट के पद पर (परख पर)

अमन अवस्थी (एमआर-08930डब्ल्यू), एएमसी, 09 सितम्बर 2009

मोहित मित्तल (एमआर-08865एफ), एएमसी, 05 मार्च 2009

अभिषेक मलिक (एमआर-08871पी), एएमसी, 05 मार्च 2009

परमिन्दर सिंह रूपराय (एमआर-08872एक्स), एएमसी, 05 मार्च 2009

दिनेश भारद्वाज (एमआर-08876एन), एएमसी, 05 मार्च 2009

यश पांडे

ब्रिगे

उप महानिदेशक

स से चि से (मा सं)

सेना शाखा

सं. 338, दिनांक 01 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

(स्थाई आयोग)

(ले के पद पर 12 दिसम्बर 2009 से)

निम्नलिखित टी ई एस-14 पाठ्यक्रम के कैडेटों की सशस्त्र सेना में ले के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2009 से स्थायी रूप से विशेष निर्देश 3/99 के अन्तर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:--

आईसी सं. नाम तथा आर्म/सर्विस

(आईसी-72078एफ) राकेश सिंह, इंजीनियर

(आईसी-72079के) सौरभ दीक्षित, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72080वाई) आशीष झा, एएडी

(आईसी-72081एफ) जय सिंह राणा, आर्टी

(आईसी-72082के) प्रबल टंडन, ईएमई

(आईसी-72083एम) अविनाश शिवाजी गवस, इंजीनियर

(आईसी-72084पी) अमन दीप शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-72085एक्स) अखिल चौबे, इन्फैन्ट्री

(आईसी-72086ए) हरजाप सिंह, सिग्नल्स

(आईसी-72087एच) हरदीप सिंह दलोरिया, इंजीनियर
 (आईसी-72088एल) ओजस मिश्रा, इंजीनियर
 (आईसी-72089एन) सुदीप के, एविएशन
 (आईसी-72090एच) विशाल शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-72091एल) अरूण कुमार यादव, ईएमई
 (आईसी-72092एन) रेनजीत के आर, सिग्नल्स
 (आईसी-72093डब्ल्यू) आनंद एस, इंजीनियर
 (आईसी-72094वाई) इशपाल ब्रोका, ईएमई
 (आईसी-72095एफ) विकास सिंह, ईएमई
 (आईसी-72096के) शिराज कपूर, इंजीनियर
 (आईसी-72097एम) सौरभ सूदन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72098पी) सतीश मारुती रेडेकर, ईएमई
 (आईसी-72099एक्स) विशाल कुमार सिंह, एएससी
 (आईसी-72100एफ) अचिन्त सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-72101के) वैभव जिन्दल, इंजीनियर
 (आईसी-72102एम) पीयूष बंसल, एसी
 (आईसी-72103पी) चिंचे सागर अरूण, ईएमई
 (आईसी-72104एक्स) आकाश बुधरानी, सिग्नल्स
 (आईसी-72105ए) विनीद टी पी, इंजीनियर
 (आईसी-72106एच) साजन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72107एल) विकास सिंह, ईएमई
 (आईसी-72108एन) निर्भय, सिग्नल्स
 (आईसी-72109डब्ल्यू) पीयूष सिंह राठौर, ईएमई
 (आईसी-72110एल) शन्मुगावडीवेल एस, इंजीनियर
 (आईसी-72111एन) शशांक चन्द मल्ल, मैक इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72112डब्ल्यू) साहिल दत्त, इंजीनियर
 (आईसी-72113वाई) नकुल शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-72114एफ) अंकित गुप्ता, ईएमई
 (आईसी-72115के) प्रियांशू शुक्ला, ईएमई
 (आईसी-72116एम) दीपक भगत, इंजीनियर

(आईसी-72117पी) मनिकंडन एम, इंजीनियर
 (आईसी-72118एक्स) अभिलाष आनन्द, सिग्नल्स
 (आईसी-72119ए) सी शरत कुरूप, इंजीनियर
 (आईसी-72120पी) गायकवाड तुषार धनंजय, सिग्नल्स
 (आईसी-72122ए) रजत प्रताप, आर्टी
 (आईसी-72123एच) सचिन खुराना, सिग्नल
 (आईसी-72124एल) तनुज कक्कड़, सिग्नल
 (आईसी-72125एन) अमन दीप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72126डब्ल्यू) सुब्रत कुमार लेंका, इंजीनियर
 (आईसी-72127वाई) राहुल सिंह, इंटर
 (आईसी-72128एफ) अनीश कुमार, ईएमई
 (आईसी-72129के) प्रवीन कुमार शर्मा, सिग्नल
 (आईसी-72130वाई) नवीन एन, इंजीनियर
 (आईसी-72131एफ) शरत नायर, ईएमई
 (आईसी-72132के) लार्डश्रम चितरंजन सिंह, इंजीनियर
 (आईसी-72133एम) शुभेन्दु त्रिपाठी, सिग्नल
 (आईसी-72134पी) नितिन कुमार, आर्टी
 (आईसी-72135एक्स) अतुल पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72136ए) विकास मलिक, ईएमई
 (आईसी-72137एच) यशस्वी श्रीवास्तवा, इंजीनियर
 (आईसी-72138एल) विपिन प्रसाद, इंजीनियर
 (आईसी-72139एन) आदित्य चांद, ईएमई
 (आईसी-72140एच) शिंदे योगेश दीपक, इंजीनियर
 (आईसी-72141एल) हर्ष कुमार, एओसी
 (आईसी-72142एन) सौरभ गुप्ता, सिग्नल
 (आईसी-72143डब्ल्यू) दाबके प्रनव सुहास, इंजीनियर
 (आईसी-72144वाई) आलदुर्ति नंद किशोर, ईएमई
 (आईसी-72145एफ) रोहित डोभाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-72146के) दीपक विज, सिग्नल

(आईसी-72147एम) रज़ीन रशीद, ईएमई
(आईसी-72148पी) संगारू श्रवण, सिग्नल
(आईसी-72149एक्स) श्रीनाथ मनी त्रिपाठी, इंजीनियर
(आईसी-72150एम) विपुल ठाकुर, एससी

नीलेश चौधरी
ले कर्नल
सहायक सेना सचिव-8बी

सेना शाखा

सं. 339, दिनांक 02 जून 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

नियमित सेना

(विशेष आयोग)

निम्नलिखित 18 जी सी को अनुदेश 5/97 के अन्तर्गत संलिखित सेना सेवा में 12 दिसम्बर 2009 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :--

आईएमए संख्या, सैन्य संख्या, पैतृक आर्म/सर्विस, नाम, एससी संख्या तथा आर्बिट्रि सर्विस आर्म

एस/701 (4000955एम), इन्फैन्ट्री, अनिल दत्त जोशी (एससी-00595एच), एओसी

एस/704 (6394063एच), एससी, प्रीतम सिंह (एससी-00596एल), एससी

एस/707 (13764567के), इन्फैन्ट्री, रमन कुमार (एससी-00597एन), इन्फैन्ट्री

एस/689 (14703015डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री, दिनेश सिंह थापा (एससी-00598डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री

एस/685 (15124426एफ), आर्टी, अनिल कुमार (एससी-00599वाई), सिग्नल

एस/693 (5454565एफ), इन्फैन्ट्री, रामकाजी गुरुंग (एससी-00600एच), इन्फैन्ट्री

एस/712 (15468432एन), एसी, रोहताश सिंह (एससी-00601एल), एसी

एस/702 (14622869डब्ल्यू), ईएमई, भाग्य राज (एससी-00602एन), ईएमई

एस/709 (9512974एफ), एईसी, प्रवीण कुमार वंजारे (एससी-00603डब्ल्यू), ईएमई

एस/692 (5453679ए), इन्फैन्ट्री, विजय गुरुंग (एससी-00604वाई), इन्फैन्ट्री

एस/705 (6395378वाई), एससी, संजय सिंह (एससी-00605एफ), इन्फैन्ट्री

एस/688 (1488768वाई), इंजीनियर्स, लक्ष्मण सिंह बिष्ट (एससी-00606के), इंजीनियर्स

एस/708 (15781808एफ), एएडी, मनोज कुमार गुप्ता (एससी-00607एम), आर्टी

एस/713 (6942173ए), एओसी, अनिल माने (एससी-00608पी), इंजीनियर्स

एस/710 (15776318के), एएडी, रीतेश जी वी (एससी-00609एक्स), एएडी

एस/694 (15478771एफ), एसी, वीनू पी (एससी-00610एम), आर्टी

एस/697 (15470972एल), एसी, विमल राज एस (एससी-00611पी), आर्टी

एस/679 (14924189एन), एससी, अजय चौहान (एससी-00612एक्स), मैक इन्फैन्ट्री

राहुल शर्मा
ले कर्नल
एमएस-8बी

एकीकृत मुख्यालय : (नौसेना)

सं. 340, दिनांक 02 जून 2010--राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या एम एफ/1506/डी ई एस/अनु-I/03 दिनांक 21 जनवरी 2008 एवं एम एफ/1822/डी ई एस/अनु-IV/03 दिनांक 23 अगस्त 2007 के अधीन भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर), अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा), एवं वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)--जुलाई/अगस्त 2005 में सौधी भर्ती योजना/विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं :--

सब-लेफ्टि के रैंक में (परखाधीन)

नाम, निजी संख्या, कमीशन की किस्म तथा कमीशन की तिथि

कार्यकारी शाखा (संभारिकी कैंडर)-अगस्त 2005

आशुतोष चतुर्वेदी (05776ए), अस्थायी, 19 अगस्त 2005

विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना

अभियांत्रिक शाखा (सामान्य सेवा)-अगस्त 2005

रामनिवास बबल (42636जैड), अस्थायी, 07 अगस्त 2005

सुब्रत महापात्रा (42637ए), अस्थायी, 07 अगस्त 2005

अभिषेक चक्रवर्ती (42638बी), अस्थायी, 07 अगस्त 2005

हरीश शेखर (42639एफ), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

सी विष्णु प्रसाद (42640एच), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

जलज भाटिया (42641के), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

जसमीत सिंह (42642एन), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

कट्टा नागुर गौतम (42643आर), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

अमरजीत सिंह (42645डब्ल्यू), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

प्रदीप मिश्रा (42647जैड), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

विजय शर्मा (42648ए), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

सोमनाथ प्रकाश सलुंखे (42649बी), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

अभिजीत विकास बरास्कर (42650एफ), अस्थायी, 15 अगस्त 2005

करुणकरण श्याम (42651एच), अस्थायी, 15 अगस्त 2005

विश्वविद्यालय प्रविष्टि योजना

वैद्युत शाखा (सामान्य सेवा)-अगस्त 2005

आशीष मोहन (52163ए), अस्थायी, 07 अगस्त 2005

रविशंकर हरिहराकृष्णा (52164बी), अस्थायी, 07 अगस्त 2005

आशुतोष शर्मा (52165एफ), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

हेमन्त कुमार सिंह चौहान (52166एच), अस्थायी, 08 अगस्त 2005

अमित तुरान (52167के), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

संदीप कुलकर्णी (52168एन), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

मनीष श्रीवास्तव (52169आर), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

राजेश कुमार अग्निहोत्री (52170टी), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

शेख मुहम्मद मुनीब आतीफ (52171डब्ल्यू), अस्थायी, 10 अगस्त

2005

एम रविकिरण (52186बी), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

ब्रिजभूषण सिंह (52172वाई), अस्थायी, 10 अगस्त 2005

आर मंजूनाथ (52174ए), अस्थायी, 15 अगस्त 2005

मनोज भाई पटेल (52175बी), अस्थायी, 15 अगस्त 2005

राजेश राजगोपालन

कमांडर

जे डी एम पी आर

(ओ आई एंड आर)

सेना शाखा

सं. 341, दिनांक 02 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष कमीशन प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टि बनाया जाता है

शंकर नागाप्पा काराजागी (टीए-42714) (एएससी टीए), 30 जून 2008 (एफएन)

जय राज

अवर सचिव

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 342, दिनांक 02 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी ए एफ एम एस/एम एन एस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988 को जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 3/98 के साथ पढ़ा जाए, के अन्तर्गत 21 अगस्त 2006 (बी एस सी नर्सिंग के लिए वरिष्ठता वेतनमान एवं पदोन्नति 21 अगस्त 2005) से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा जन्मतिथि

लेफ्टि अरशी सुल्ताना (एनआर-21634के), 27 जुलाई 1982

लेफ्टि रेनुका दलाल (एनआर-21635एम), 04 अप्रैल 1982

अस्थायी कमीशन

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 29537/डी जी ए एफ एम एस/एम एन एस 2586/डी (मेडिकल) दिनांक 17 जून 1988, जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया तथा सेना अनुदेश 17/96 के साथ पढ़ा जाए के अन्तर्गत 05 फरवरी 2009 से मिलिट्री नर्सिंग सेवा में अस्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :-

लेफ्टि परख पर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा जन्मतिथि

लेफ्टि रम्या आर (एनएस-21830के), 19 जनवरी 1986

लेफ्टि नित्या एस (एनएस-21831एम), 10 दिसम्बर 1984

लेफ्टि गगनदीप कौर (एनएस-21832पी), 26 दिसम्बर 1986

लेफ्टि नेहा (एनएस-21833एक्स), 04 नवम्बर 1986

लेफ्टि जी देवी (एनएस-21834ए), 09 मई 1987

लेफ्टि रानी कल्पना आर (एनएस-21835एच), 03 जुलाई 1986

लेफ्टि स्नेहलता (एनएस-21836एल), 10 जनवरी 1986

लेफ्टि पोनमणि ए (एनएस-21837एन), 05 जुलाई 1986

लेफ्टि कोल्हे वनिता साहेबराव (एनएस-21838डब्ल्यू), 17 जून 1986

लेफ्टि वेणुताई (एनएस-21839वाई), 02 जून 1986

लेफ्टि सरवजीत कौर मान (एनएस-21840एन), 14 अक्टूबर 1984

लेफ्टि लुगेलु दायमी (एनएस-21841डब्ल्यू), 15 मार्च 1984

लेफ्टि आस्थालक्ष्मी आर (एनएस-21842वाई), 26 दिसम्बर 1985

लेफ्टि अमृता साहू (एनएस-21843एफ), 12 अप्रैल 1985

लेफ्टि राजलक्ष्मी (एनएस-21844के), 31 अक्टूबर 1986

लेफ्टि सी बलारमति (एनएस-21845एम), 09 मई 1985
 लेफ्टि रंजनी के (एनएस-21846पी), 13 मई 1982
 लेफ्टि एम एस मैथिली (एनएस-21847एक्स), 31 मई 1984
 लेफ्टि दीपिका चन्दोक (एनएस-21848ए), 07 जनवरी 1985
 लेफ्टि मेरी वागधियानमोल (एनएस-21849एच), 30 अगस्त 1984
 लेफ्टि जी आर जानकी (एनएस-21851ए), 21 अप्रैल 1984
 लेफ्टि एम डी जहाराबी (एनएस-21852एच), 01 जून 1985
 लेफ्टि रीनू मैथ्यू (एनएस-21853एल), 26 अगस्त 1984
 लेफ्टि नीमरेचोन ड्यूडॉंग (एनएस-21854एन), 25 फरवरी 1984
 लेफ्टि वानी एस (एनएस-21855डब्ल्यू), 29 नवम्बर 1985
 लेफ्टि दीपा एस (एनएस-21856वाई), 10 सितम्बर 1982
 लेफ्टि पी शान्तनालक्ष्मी (एनएस-21857एफ), 19 जुलाई 1984
 लेफ्टि वी एलामति (एनएस-21858के), 15 मई 1980
 लेफ्टि डी चित्रा (एनएस-21859एम), 09 दिसम्बर 1978
 लेफ्टि खैरापम मेमथोई देवी (एनएस-21860एफ), 10 मार्च 1982
 लेफ्टि सुजिशा ओ पी (एनएस-21861के), 15 मार्च 1985
 लेफ्टि एस आरक्कामारी (एनएस-21862एम), 25 मई 1978
 लेफ्टि टी जयन्ती (एनएस-21863पी), 25 मई 1984
 लेफ्टि एस शान्ती (एनएस-21864एक्स), 28 मई 1985
 लेफ्टि विजय लक्ष्मी (एनएस-21865ए), 10 जुलाई 1986
 लेफ्टि लोधा खुशाली सुमन सिंह (एनएस-21866एच), 17 नवम्बर 1985
 लेफ्टि वनजाक्षी वी भावी कट्टी (एनएस-21867एल), 03 जून 1985
 लेफ्टि एस पैकियालक्ष्मी (एनएस-21868एन), 06 जून 1982

टी पदमिनी
 मेजर जनरल
 अति डी जी एम एन एस

थल सेना विभाग

सं. 343, दिनांक 03 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित भूतपूर्व जूनियर कमिशनड अफसरों को नौकरी पर बहाल करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

सूबेदार मेजर (जीडी) के रैंक में

सूबेदार मेजर गुरपाल सिंह (जेसी-428182एच), पहले पंजाब रेजिमेन्ट, 12 अप्रैल 2009

सूबेदार मेजर राम निवास सिंह तोमर (जेसी-237345एच), पहले आर्मड कोर, 27 अप्रैल 2009

सूबेदार (जीडी) के रैंक में

सूबेदार गोबिन्द सिंह (जेसी-412486डब्ल्यू), पहले पैरा रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार धृवज्योति सिन्हा (जेसी-548753एम), पहले आसाम रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

सूबेदार सुब्रता कुमार बसु (जेसी-691104के), पहले एएमसी, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार भगवती प्रसाद (जेसी-568869के), पहले महार रेजिमेन्ट, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार लिला राम (जेसी-448856डब्ल्यू), पहले गिनेडियर रेजिमेन्ट, 25 अप्रैल 2009

सूबेदार दर्शन सिंह (जेसी-508143एक्स), पहले सिख लाई रेजिमेन्ट, 27 अप्रैल 2009

सूबेदार पदम बहादुर गुरूंग (जेसी-612422पी), पहले 4 जीआर, 07 मई 2009

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

नायब सूबेदार सुख राम (जेसी-255435एम), पहले आर्टी रेजिमेन्ट, 22 दिसम्बर 2008

नायब सूबेदार ब्रह्म दास (जेसी-568923एम), पहले महार रेजिमेन्ट, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह थापा (जेसी-602369एफ), पहले 1 जीआर, 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार समित्तर सिंह (जेसी-348527एल), पहले बीईजी (क), 25 अप्रैल 2009

नायब सूबेदार भादुर सिंह (जेसी-519258एल), पहले डोगरा रेजिमेन्ट, 25 अप्रैल 2009

प्रदीप कुमार
 अवर सचिव

सेना सचिव शाखा

सं. 344, दिनांक 03 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी सेना

लेफ्टिनेंट जनरल के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी व आर्म, ले. जनरल के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

(आईसी-25815) मेजर जनरल गुरदीप सिंह, वीएसएम, आर्टी, 01 जून 2009

(आईसी-25839) मेजर जनरल बलजीत सिंह, आर्टी, 01 जून 2009
 (आईसी-27352) मेजर जनरल एम एस बुट्ट, वीएसएम, आर्टी (जीसी), 01 जून 2009
 (आईसी-27606) मेजर जनरल ए के सिंह, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम 7 केव, 02 जुलाई 2009
 (आईसी-27616) मेजर जनरल के सुरेन्द्र नाथ, वीएसएम, मेक फोर्स, 31 जुलाई 2009
 (आईसी-27645) मेजर जनरल रामेश्वर रोय, एवीएसएम, वाईएसएम जाक रिफ, 01 अगस्त 2009
 (आईसी-27679) मेजर जनरल एन सी मारवाह, एवीएसएम कुमाऊँ, 01 सितम्बर 2009
 (आईसी-30516) मेजर जनरल कुलदीप सिंह, एएडी, 18 सितम्बर 2009
 (आईसी-25408) मेजर जनरल एम सी बधानी, वीएसएम, इंजीनियर्स, 28 सितम्बर 2009
 (आईसी-27701) मेजर जनरल डी एस सिद्धु, वीएसएम, 17 होर्स, 26 अक्टूबर 2009

एन के फूकन
 निदेशक/एमएस (एक्स)

 थल सेना शाखा

सं. 345, दिनांक 03 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

मेजर जनरल (और समकक्ष) से ले. जनरल (और समकक्ष) के पद पर
 डी पी वत्स (एमआर-03831के), 01 जनवरी 2010

यश पांडे
 बिग्रे

उप महानिदेशक ससेचिसे (एचआर)

 सेना सचिव शाखा

सं. 346, दिनांक 03 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करती हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

आईसी, रैंक, नाम व आर्म, ब्रिगेडियर के मूल रैंक की प्रभावी तिथि

(आईसी-39838) कर्नल पी एन लाखे, ईएमई, 27 अगस्त 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-37555) कर्नल बी जी खण्डारे, एसएम, गढ़ रिफ, 03 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 03 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38645) कर्नल अजय साह, एसएम, वीएसएम, गढ़ रिफ, 25 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 06 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38669) कर्नल जी शंकर, एमएलआई, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38679) कर्नल अभय कृष्णा, एसएम, वीएसएम, राज रिफ, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 08 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38680) कर्नल संजय अग्रवाल, इंजीनियर्स, 01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38686) कर्नल विनोद कुमार, एएडी, 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38691) कर्नल जे एस बेदी, आर्टी, 01 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38694) कर्नल परमजीत सिंह, ईएमई, 05 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38704) कर्नल ए के सिंह, पंजाब, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38705) कर्नल के बी चन्द, डोगरा, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38708) कर्नल अशोक आंबे, एम अल आई, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 10 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38711) कर्नल विनोद कुमार, वीएसएम, मेक, इन्फ, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38714) कर्नल आर एस मलावे, आर्म्ड, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38720) कर्नल ए एस चौधरी, आर्टी, 04 मार्च 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 11 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38722) कर्नल सी माथसन, एसएम, गढ़ रिफ, 02 मई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38723) कर्नल ए खन्ना, आर्टी, 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38732) कर्नल ए जी कुन्दलकर, एसएम, 4 जीआर, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 12 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38739) कर्नल आर के राजपूत, आर्टी, 01 अप्रैल 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38744) कर्नल एस प्रताप, 8 जीआर, 01 सितम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38749) कर्नल एस एम मुरारी, वीएसएम, एएडी, 13 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता

(आईसी-38761) कर्नल एस मंमैन, एसएम, इन्ट, 01 अप्रैल 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 14 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38767) कर्नल पी एस नायर, आर्टी, 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38782) कर्नल सरबजीत सिंह, सिग्स, 01 जुलाई 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 15 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38792) कर्नल पंकज मल्होत्रा, वीएसएम, ईएमई, 09 दिसम्बर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-38812) कर्नल पी के सिंह एसएम, वीएसएम, राजपूत, 01 अक्टूबर 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 16 जनवरी 2008 से दी जायेगी

(आईसी-41055) कर्नल के एस चौहान, सिग्स, 01 फरवरी 2009 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 31 जनवरी 2008 से दी जायेगी

एन के फूकन
निदेशक/एमएस (एक्स)

थल सेना शाखा

सं. 347, दिनांक 04 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले कर्नल से कर्नल (टीएस) के पद पर

एमआर नं., रैंक, नाम व तारीख

(एनटीआर-16546) ले. कर्नल धर्मपाल ओला, 21 जनवरी 2010

यश पांडे

बिग्रे

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सेना शाखा

सं. 348, दिनांक 04 जून 2010--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई आयोग

ले कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में

वैयक्तिक सं., नाम, आर्म तथा मूल रैंक की तिथि

(आईसी-40730) ए के मुखर्जी, सिग्नल्स, 01 जनवरी 2008

(आईसी-44596) पतंजलि पुरी, इंजीनियर्स, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47011) विनायक सैनी, इंजीनियर्स, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47407) बी एस जाखड़, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47432) वी गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47528) रवि कुमार, आईसी, 06 अगस्त 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

(आईसी-47371) बलबीर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47493) आर विमरु, आईसी, 12 अगस्त 2008 किन्तु वरिष्ठता प्रभावी 01 जनवरी 2008 से बिना वेतन और पेंशन पर प्रभाव डाले।

(आईसी-47125) ए पी मुलिमनी, एएडी, 01 जनवरी 2008

(आईसी-47087) आर के शर्मा, एएडी, 01 जनवरी 2008

(आईसी-49349) विनीत गौर, ईएमई, 01 जनवरी 2008

टी के दास
उप निदेशक, एमएस-8ए

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 349, दिनांक 04 जून 2010—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एमएनएस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :—

ले कर्नल (टी एस) से ले कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख

ले कर्नल बेबी एन वी (एनआर-17671ए), 01 दिसम्बर 2009

ले कर्नल एस के रावत (एनआर-16294एच), 25 अगस्त 2003

ले कर्नल एस चक्रवर्ती (एनआर-16341पी), 11 अक्टूबर 2003

ले कर्नल पूनम बानिक (एनआर-16449एम), 06 अक्टूबर 2003

ले कर्नल वी एस बेबी (एनआर-16711के), 19 दिसम्बर 2005

ले कर्नल अन्नम्मा ई थॉमस (एनआर-16851डब्ल्यू), 30 जनवरी 2006

ले कर्नल के एम ओमना (एनआर-16882डब्ल्यू), 09 दिसम्बर 2005

ले कर्नल के चक्रवर्ती (एनआर-16919एम), 03 जुलाई 2006

ले कर्नल मेरी मेबल (एनआर-16931एन), 03 जुलाई 2006

ले कर्नल लक्ष्मीमती (एनआर-16958एल), 11 सितम्बर 2006

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एमएनएस

सेना शाखा

सं. 350, दिनांक 04 जून 2010—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले कर्नल

आई सी सं., नाम, आर्म तथा ले. कर्नल दिनांक से

(आईसी-46812) हर्ष वी छिब्बर, इन्फैन्ट्री, 26 अक्टूबर 2009

(आईसी-54166) गौरव महाजन, एएसई, 26 अक्टूबर 2009

(आईसी-54736) यजुर्वेदर सिंह, एएसई, 26 अक्टूबर 2009

(आईसी-55396) अनिल यादव, ईएमई, 26 अक्टूबर 2009

(आईसी-57524) आर सत्या नारायण सतिश, सिग्नल्स, 26 अक्टूबर 2009

(एसएल-04364) के दयानिधी, इंजीनियर्स, 26 अक्टूबर 2009

(एसएल-04199) जगवंत सिंह, ईएमई, 26 अक्टूबर 2009

(आईसी-41076) हरीश कुमार गुलाटी, एओसी, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-53058) मनीष चौहान, आईएनटी, 11 जून 2007

(आईसी-54026) एच प्रवीण, इन्फैन्ट्री, 09 दिसम्बर 2008

(आईसी-54074) मधुप वर्मा, एओसी, 09 दिसम्बर 2008

(आईसी-54298) रोहित गुप्ता, इंजीनियर्स, 08 जून 2009

(आईसी-54522) शीर्षेन्द्र मुखर्जी, इन्फैन्ट्री, 08 दिसम्बर 2009

(आईसी-55588) जे एल श्रीनिवासन, इंजीनियर्स, 09 नवम्बर 2009

(आईसी-55607) कुमार आर आर सिंह, इन्फैन्ट्री, 09 नवम्बर 2009

(एसएल-04311) अशोक कुमार, इंजीनियर्स, 27 अप्रैल 2009

(एसएल-04325) लक्ष्मी नारायणन एम बी, ईएमई, 27 अप्रैल 2009

(आईसी-56601) मिलन विनायक नालवाडे, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56608) मनेश नागपाल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56628) मलविन्दर सिंह रंधावा, सिग्नल्स

(आईसी-56629) विवेक कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56633) शशी भूषण घिल्दियाल, आर्टी

(आईसी-56634) अनुराग शर्मा, ईएमई

(आईसी-56636) राहुल मच्चराल, आर्टी

(आईसी-56637) विशाल नाय्यर, इंजीनियर्स

(आईसी-56643) परमजीत सिंह बाजवा, एएससी

(आईसी-56644) गुरपार्तो सिंह, ईएमई

(आईसी-56652) संदीप कपूर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56658) विक्रम अनंत धोदपकर, ईएमई

(आईसी-56667) अरूण भंडारी, सिग्नल्स

(आईसी-56669) दिपेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56699) अमित तेवतिया, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56701) वदविन्दर सिंह परमर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56719) स्वामीनाथन पी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56729) आशुतोष दत्त शर्मा, सिग्नल्स

(आईसी-56735) शैलेश कोपकर, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56779) चरणजीत सिंह भल्ला, ईएमई

(आईसी-56809) कुलकर्णी आशुतोष चन्द्रकांत, सिग्नल्स

(आईसी-56810) अनुराग रावत, इंजीनियर्स

(आईसी-56820) सुदीप कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56839) अनिल कुमार के वी, सिग्नल्स

(आईसी-56846) रंजन महाजन, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56864) अनिल कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-56872) राहुल शर्मा, एसी

--07 दिसम्बर 2009--

जसवंत सिंह
संयुक्त निदेशक एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं. 351, दिनांक 7 जून 2010--थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अंतर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

नियमित सेवा

सैनिक दंत चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

मनीष मित्तल (डीआर-10611एच), 30 मई 2009

युवराज इस्सर (डीआर-10579वाई), 19 मई 2009

अमित जैन (डीआर-10609एल), 23 अप्रैल 2009

नितिन गुप्ता (डीआर-10608एच), 15 अप्रैल 2009

नवीन कौल (डीआर-10612एल), 23 जून 2009

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्धस्थायी मेजर के पद पर

वीरांजली सावंत (डीएस-12138एफ), 24 जून 2009

गौरव गर्ग (डीएस-12135एन), 09 जून 2009

इन्द्रनील मुखोपाध्याय (डीएस-12165एल), 07 जून 2009

भानू शर्मा (डीएस-12136डब्ल्यू), 11 जून 2009

डी के तनेजा
मेजर जनरल
एडीजीडीएस

स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 352, दिनांक 7 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गई तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

कैप्टन से मेजर

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या व पदोन्नति की तारीख

मेजर वन्दना (एनआर-19976वाई), 28 मार्च 2003

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एम एन एस

सं. 353, दिनांक 7 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारी को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन (एस एल)

कप्तान से मेजर

एसएल सं., नाम आर्म तथा मेजर तिथि से

(एसएल-04951) श्रीधर वी (एल/एपीटीसी), 14 जून 2009

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एमएस-8सी

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 354, दिनांक 7 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित एन सी सी पूर्णकालिक महिला अधिकारियों की पदोन्नतियां करते हैं। उनकी पदोन्नति की तिथि व रैंक सम्बन्धी वरिष्ठता उनके नाम के सामने दी गई है :--

एन सी सी पूर्णकालिक महिला अधिकारी

(स्थायी कमीशन प्राप्त)

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

रैंक, नाम, सं. तथा पदोन्नति की तिथि

लेफ्टि फराह दीबा (एनसीसी/जीडी/पीसी-12506), 05 जुलाई 2008

लेफ्टि पालाबोइना सुरेखा राव (एनसीसी/जीडी/पीसी-12507), 08 जुलाई 2008

लेफ्टि सविता चिल्लर (एनसीसी/जीडी/पीसी-12508), 02 जुलाई 2008

लेफ्टि दीप्ति (एनसीसी/जीडी/पीसी-12509), 29 जून 2008

लेफ्टि दीपा चन्द्रशेखरन (एनसीसी/जीडी/पीसी-12511), 08 जुलाई 2008

लेफ्टि रजिथा दिवाकरन (एनसीसी/जीडी/पीसी-12513), 01 जुलाई 2008

लेफ्टि महुवा भट्टाचार्यजी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12515), 04 जुलाई 2008

लेफ्टि परवीन मनसुराली बुधवानी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12516),
08 जुलाई 2008

लेफ्टि कविता दह्याभाई ईटालियन (एनसीसी/जीडी/पीसी-12518),
27 जून 2008

लेफ्टि मिनाक्षी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12519), 02 जुलाई 2008

लेफ्टि रीना गोस्वामी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12520), 08 जुलाई 2008

लेफ्टि लंगम रंजना देवी (एनसीसी/जीडी/पीसी-12521), 08 जुलाई
2008

लेफ्टि मंजू आर (एनसीसी/जीडी/पीसी-12522), 08 जुलाई 2008

लेफ्टि गंधम श्रीप्रिया (एनसीसी/जीडी/पीसी-12525), 08 जुलाई 2008

एस जे डेविड

कर्नल

निदेशक (एमएस)

सेना शाखा

सं. 355, दिनांक 08 जून 2010---राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों
को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

ले से कप्तान

आईसी सं., नाम, आर्म व कप्तान दिनांक से

(आईसी-65286) राजेश कुमार, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-65431) जी सी चक्रधर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-65472) हरविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

(आईसी-65476) अभिषेक मिश्रा, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

(आईसी-65478) प्रवीण कुमार दूबे, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

(आईसी-65484) धर्मेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 01 मई 2007

(आईसी-65485) अवनीत सिंह मेहता, मैक इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005

(आईसी-66042) जिजु वर्सेस, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004

(आईसी-69603) संजय सिंह जीना, इंजीनियर्स

(आईसी-69604) योगेश चौहान, एसी

(आईसी-69605) जड्डू वम्सीधर नायडू, सिग्नल्स

(आईसी-69606) विनय प्रकाश सिंह, एसी

(आईसी-69607) आशीष कुमार ओझा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69608) पाटिल रवि ध्रुव, ईएमई

(आईसी-69609) पुनीत खन्ना, इंजीनियर्स

(आईसी-69610) चेतन एन बालुलद, आर्टी

(आईसी-69612) गौतम लाम्बा, आर्टी

(आईसी-69613) ज्ञान रंजन साहु, एओसी

(आईसी-69614) पंकज पाठक, इंजीनियर्स

(आईसी-69615) अविनाश सवाई, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69616) जसविन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69617) सालुंके सौरभ रजनीकांत, मैक

(आईसी-69618) वांग्याल ताशी शेपा, एएडी

(आईसी-69619) गुरप्रताप सिंह, आर्टी

(आईसी-69620) स्वप्निल नाथुजी राऊत, आर्टी

(आईसी-69621) महिपाल सिंह भाटी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69622) क्षितिज आर्या, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69623) त्रिवेदी स्नेहल अरूण कुमार, एएससी

(आईसी-69624) संदीप उपरेती, आर्टी

(आईसी-69625) सौरभ ठाकुर, आर्टी

(आईसी-69626) प्रदीप सिंह अधिकारी, आर्टी

(आईसी-69627) जगधने पीयूष प्रलाद, एसी

(आईसी-69628) दिवेश कुमार, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69629) करन शर्मा, इंजीनियर्स

(आईसी-69630) बिकिरण कुमार दास, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69631) अरूण कुमार, ईएमई

(आईसी-69632) घनेन्दर प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69633) शरद वशिष्ठ, ईएमई

(आईसी-69634) सिद्धन्ता बी मुनोल्ली, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69635) प्रवीण कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69636) मयंक सक्सेना, एएडी

(आईसी-69637) अपूर्व रंजन सिंघा, आर्टी

(आईसी-69638) सुधीर सिंह कालाकोटी, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69639) ऋषभ निगम, मैक

(आईसी-69640) राहुल सिंह, इंजीनियर्स

(आईसी-69641) अभिषेक सक्सेना, इंजीनियर्स

(आईसी-69642) चन्नाबासावेश के गुंडे, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69643) हीरा सिंह, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69644) गुरुमुख सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69678) विक्रम शर्मा, मैक
(आईसी-69645) सत्येन्द्र सिंह, इंजीनियर्स	(आईसी-69679) पुनीत दत्ता, इंजीनियर्स
(आईसी-69646) सौरभ शर्मा, ईएमई	(आईसी-69680) आशीष धनखर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69647) कीर्ति बलराम जवाधी, इंजीनियर्स	(आईसी-69681) सवित विक्रम, इंजीनियर्स
(आईसी-69648) जगन्नाथ बी देसाई, इंजीनियर्स	(आईसी-69682) विजेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69649) कृष्णाचन्द्रन पी, आर्टी	(आईसी-69683) क्षितिज प्रकाश गुप्ता, एएडी
(आईसी-69650) स्वरूप सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69684) ऋषभ तिवारी, आर्टी
(आईसी-69651) तरुण एडवर्ड, आर्टी	(आईसी-69685) बन्टी महौरिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69652) शिशिर पाण्डेय, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69686) हेमन्त कुमार देवलाल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69653) अजय सिंह भदौरिया, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69687) बलराम राणा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69654) कल्पेश गोरख कलाल, आर्टी	(आईसी-69688) गणेश सिंह पोखरिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69655) विश्वजीत मित्रा, एओसी	(आईसी-69689) प्रभात मिश्रा, आर्टी
(आईसी-69656) स्वप्निल चन्द्रशेखरन कुलकर्णी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69690) धीरज कुमार सिंह, ईएमई
(आईसी-69657) अवनीश कुमार, एसी	(आईसी-69691) वी विनय भानु रेड्डी, आर्टी
(आईसी-69658) कार्तिकराज पी, एएससी	(आईसी-69692) जसविन्दर सिंह, ईएमई
(आईसी-69659) संदीप सिंह, सिग्नल्स	(आईसी-69693) अभिषेक मिश्रा, आर्टी
(आईसी-69660) डब्ल्यू हिटलर मर्तई, एओसी	(आईसी-69694) सुमन्त महाजन, आर्टी
(आईसी-69661) ज्योति प्रकाश मिश्रा, सिग्नल्स	(आईसी-69695) पदम्पनाभन स्वामी, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69662) नेपराम सोमोकान्ता सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69696) मुकुल शर्मा, एएडी
(आईसी-69663) स्वागत कुमार दास, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69697) अरूण सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-69664) कुमार सुगन्ध, एओसी	(आईसी-69698) मधियालगन जी, ईएमई
(आईसी-69665) सुजीत कुमार, आर्टी	(आईसी-69699) संभव सागर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69666) सुनील दहिया, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69700) गरूण आनंद, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69667) गौरव थापा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69701) अमित सिंह, एओसी
(आईसी-69668) अर्जुन गुलाठी, इंजीनियर्स	(आईसी-69702) रविशेखर आर कोट्टूर, आर्टी
(आईसी-69669) चिराग बवेजा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69703) पर्वत दान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69670) राहुल सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69704) ऐलेक्स सेवेस्टियन, आर्टी
(आईसी-69671) रितेश कुमार सिंह, आर्टी	(आईसी-69705) रंजन कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69672) अजय कुमार गिल, ईएमई	(आईसी-69706) एस नवनीथ गणेश, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69673) आलोक बदोनी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69707) दीपज्योति सैकिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69674) चेतन कौशिक, आर्टी	(आईसी-69708) अर्जुन रामथ, इंजीनियर्स
(आईसी-69675) तपन सांगवान, इंजीनियर्स	(आईसी-69709) धीरज पराशर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69676) सुमेश कुमार पी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69710) वीनु टी एम, आर्टी
(आईसी-69677) अरविन्द पी जे, ईएमई	(आईसी-69711) नवनीत जंग थापा, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69712) राहुल सिंह, ईएमई
 (आईसी-69713) शिखर अग्रवाल, मैक
 (आईसी-69714) यशपाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69715) संजीव कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-69716) कमलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69717) सौरभ पाण्डेय, आर्टी
 (आईसी-69718) कुमुद कुमार यादव, ईएमई
 (आईसी-69719) नीरज शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-69720) मोहित हुड्डा, एओसी
 (आईसी-69721) अश्वनी सिंह, एओसी
 (आईसी-69722) एस दुर्गा प्रसाद दोरा, इंजीनियर्स
 (आईसी-69723) श्री प्रसाद थापा, आर्टी
 (आईसी-69724) किरण एस राहुल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69725) अपूर्व गोयल, इन्ट
 (आईसी-69726) आलोक शंकर, इंजीनियर्स
 (आईसी-69727) उज्ज्वल पटियाल, एसी
 (आईसी-69728) गोपाल मिश्रा, एओसी
 (आईसी-69729) पारित प्रताप सिंह, मैक
 (आईसी-69730) हिमांशु गुप्ता, एएडी
 (आईसी-69731) कपिल त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69732) एन थान्दवान, आर्टी
 (आईसी-69733) जी कालीचरण, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69734) प्रतीक शुक्ला, आर्टी
 (आईसी-69735) प्रसून सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69736) सुमित्र व्यास, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69737) दलजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69738) ललित कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-69739) जी नरेश रेड्डी, आर्टी
 (आईसी-69740) जयप्रकाश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69741) अभिनव वर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-69742) मनीष, आर्टी
 (आईसी-69743) दलीप गुरुंग, एओसी
 (आईसी-69744) संदीप आर एच, आर्टी
 (आईसी-69745) अनिल कुमार समल, इन्फैन्ट्री

(आईसी-69746) दीपक उनियाल, आर्टी
 (आईसी-69747) हरदीप सिंह, आर्टी
 (आईसी-69748) वरुनेश राव, एएडी
 (आईसी-69749) अविजीत चौधरी, इंजीनियर्स
 (आईसी-69750) संजीव कुमार रतन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69751) सरवजीत सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69752) रंजन कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69753) कुमार अंकुर, आर्टी
 (आईसी-69754) नोएल गिल्बर्ट एन्टेनी, एओसी
 (आईसी-69755) अक्षय गिरीश कुमार, इंजीनियर्स
 (आईसी-69756) संजीव कुमार, एसी
 (आईसी-69757) अश्वनी कुमार पंडिता, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69758) जय शंकर शर्मा, आर्टी
 (आईसी-69759) पुरण सिंह सलारिया, ईएमई
 (आईसी-69760) पुलकित अग्रवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69761) विक्की लमोरिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69762) विक्रम सिंह गौतम, आर्टी
 (आईसी-69763) सुशांता कुमार जेना, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69764) दिनेश कुमार, एओसी
 (आईसी-69765) विशाल देशवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69766) तापस कुमार डेका, एएडी
 (आईसी-69767) नीलन्दकन बी, इंजीनियर्स
 (आईसी-69768) स्मित ममगैन, इंजीनियर्स
 (आईसी-69769) राहुल सिंह, ईएमई
 (आईसी-69770) तरुण राणा, मैक
 (आईसी-69771) शशांक लवनिया, आर्टी
 (आईसी-69772) अंशुभान सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69773) शशीधरन वी नायर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69774) वरुण शर्मा, सिग्नल्स
 (आईसी-69775) अनिल प्रसाद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69776) दिनेश फोगट, आर्टी
 (आईसी-69777) प्रवीण चौधरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69778) सयान एस बंधोपाध्याय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69779) गौरव मित्रा, इंजीनियर्स

(आईसी-69780) विजय चौधरी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69814) हिमांशु ध्यानी, एओसी
(आईसी-69781) सौरभ जोशी, एएडी	(आईसी-69815) रितेश प्रताप सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-69782) मोहित तिवारी, एएससी	(आईसी-69816) योगेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69783) विकास कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69817) आदित्य सिंह, सिग्नल्स
(आईसी-69784) अरविन्द कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69818) अभीक पुरई, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69785) अनिल कुमार एस नायर, आर्टी	(आईसी-69819) अंशुल जैन, ईएमई
(आईसी-69786) एलिको एम, आर्टी	(आईसी-69820) एन प्रवीण कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69787) भरत पाल यादव, एओसी	(आईसी-69821) अमर कुमार, आर्टी
(आईसी-69788) कल्पतरु दास, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69822) दिपेन्द्र जी अग्निहोत्री, एएडी
(आईसी-69789) निर्मल साही, आर्टी	(आईसी-69823) शशांक थोटे, इंजीनियर्स
(आईसी-69790) अभिषेक कुमार, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69824) अंकित यादव, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69791) सम्राट गायकवाड, ईएमई	(आईसी-69825) शफीक अहमद खान, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69792) पियूष तिलारा, सिग्नल्स	(आईसी-69826) भास्करानंद ममगैन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69793) केदार मरकले, एसी	(आईसी-69827) पी विश्वेस्वर राव, ईएमई
(आईसी-69794) मनीष कुमार, मैक	(आईसी-69828) विनोद घाडगे, आर्टी
(आईसी-69795) कौस्तुभ पांडुरंग जाधव, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69829) अंकोलेकर दुर्गेशनंद शरद, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69796) अमित रोहतगी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69830) पालदे सोमनाथ पुंजा, आर्टी
(आईसी-69797) प्रवीण कोशी, इंजीनियर्स	(आईसी-69831) अमरजीत सिंह एलॉगबम, मैक
(आईसी-69798) कुलदीप भाडु, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69832) विजयानन्द दुबे, एसी
(आईसी-69799) बोरकर दौलत संपतराव, इंजीनियर्स	(आईसी-69833) अभिनन्दन दुबे, आर्टी
(आईसी-69800) संतोष चौधरी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69834) अमित, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69801) अनिल ईश्वर करवाल, इंजीनियर्स	(आईसी-69835) किशन डोडवारिया, ईएमई
(आईसी-69802) सफल प्रधान, आर्टी	(आईसी-69836) अरुण कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69803) सी विनय, इंजीनियर्स	(आईसी-69837) कृपाकर एम, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69804) ऐश्वर्या जोशी, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69838) उमेश बाबू थापा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69805) अभिषेक शरण पाठक, एएससी	(आईसी-69839) वरुण मिश्रा, मैक
(आईसी-69806) आशीष तिवारी, आर्टी	(आईसी-69840) विजित कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69807) लेनिन जोहन्सन, आर्टी	(आईसी-69841) शहरयार हैदर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69808) संदीप मिश्रा, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69842) सौरभ मल, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69809) भास्कर दत्ता, आर्टी	(आईसी-69843) चन्द्र कांत शर्मा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-69810) सुबास आर, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69844) विशाल शर्मा, ईएमई
(आईसी-69811) पी बालू फनिकर, इंजीनियर्स	(आईसी-69845) रस्से नितिन रविकांत, आर्टी
(आईसी-69812) प्रवीण सिंह राणावत, एओसी	(आईसी-69846) धीरेन्द्र कुमार यादव, एओसी
(आईसी-69813) सुनिल सिंह, इन्फैन्ट्री	(आईसी-69847) सौरभ सिंह मयंक, इंजीनियर्स

- (आईसी-69848) गोस्वामी दिव्यज्योति दिलीप कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-69849) अमित चौबे, इंजीनियर्स
 (आईसी-69850) उमेश भट्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69851) हीरेन्द्र सुमरा, इंजीनियर्स
 (आईसी-69852) गौतम विश्वास, इन्ट
 (आईसी-69853) उदय मोहन आगा, सिग्नल्स
 (आईसी-69854) प्रोतम विश्वास, इंजीनियर्स
 (आईसी-69855) प्रसून द्विवेदी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69856) नितिन गौतम, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69857) तनमय अयैर, इंजीनियर्स
 (आईसी-69858) शाबेस्तियन मारबनियंग, एससी
 (आईसी-69859) विक्रम सिंह, एससी
 (आईसी-69861) संदीप चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69862) सुनील बरतवाल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69863) बेध अरविन्द लाल चंद, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69864) तरुण नेगी, ईएमई
 (आईसी-69865) श्रीधर, आर्टी
 (आईसी-69866) अजय सिंह डोगरा, एओसी
 (आईसी-69867) संजीव यादव, सिग्नल्स
 (आईसी-69868) जगमोहन सिंह रावत, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69869) देवेश कुमार राय, आर्टी
 (आईसी-69870) थिटे प्रसाद अनिल, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69871) प्रताप सिंह, एएडी
 (आईसी-69872) विवेक बोदला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69873) अमित कुमार अवस्थी, इंजीनियर्स
 (आईसी-69874) ठेकने हर्षवर्धन शाहजी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69875) मोहित बेरी, आर्टी
 (आईसी-69876) पूमलाल एल नचैत, मैक
 (आईसी-69877) प्रशांत जामवाल, एसी
 (आईसी-69878) संदीप सिंह पटानिया, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69879) निकेश कौशिक, इंजीनियर्स
 (आईसी-69880) वरुण गजरिया, आर्टी
 (आईसी-69881) विशाल गुरुंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69882) देव प्रसाद चौधरी, आर्टी
 (आईसी-69883) हेमन्त मिश्रा, ईएमई
 (आईसी-69884) मनीष सिंह, ईएमई
 (आईसी-69885) पराग गुम्बर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69886) मोहम्मद अशरफ मीर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69887) विपिन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69888) हरेन्द्र बिष्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69889) पोडीपीरेड्डी श्रवण सिद्धार्थ, इन्ट
 (आईसी-69890) राज सौरभ, एएडी
 (आईसी-69891) राजेश सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69892) संदीप कुमार, मैक
 (आईसी-69893) विष्णु गोपन, एओसी
 (आईसी-69894) नरेश शर्मा, आर्टी
 (आईसी-69895) अपूर्वा कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69896) कमलेश कुमार श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69897) अक्षत छिब्बर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69898) गिरीश चन्द्र जोशी, आर्टी
 (आईसी-69899) मनोज रावत, इंजीनियर्स
 (आईसी-69900) मनमीत सिंह, ईएमई
 (आईसी-69901) प्रदीप कुमार सिंह, ईएमई
 (आईसी-69902) एम कार्तिकेयन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69903) दीपक कुमार तिवारी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69904) जगदीश के एस, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69905) थापा बलबहादुर भीमबहादुर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69906) सोर्यावीर सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69907) कीर्तिमान कार्की क्षेत्री, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69908) संतोष ए के, एसी
 (आईसी-69909) सुभम पाण्डेय, एएडी
 (आईसी-69910) भास्कर पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69911) शिबब्रत मोहंती, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69912) दीपक कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69913) मयुर अलोरिया, आर्टी
 (आईसी-69914) विक्रम सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69915) वैभव श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 (आईसी-69916) हीरा सिंह, एओसी

- (आईसी-69917) प्रदीप ढिल्लन, एसी
- (आईसी-69918) विशाल पारिक, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69919) रणदीप हलदर, ईएमई
- (आईसी-69920) संदीप थपलियाल, आर्टी
- (आईसी-69921) लाल अनंत ए, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69922) कपिल देव, इंजीनियर्स
- (आईसी-69923) विक्रांत शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69924) राहुल रावत, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69925) मयंक बिष्ट, एओसी
- (आईसी-69926) रवि कांत पाण्डेय, सिग्नल्स
- (आईसी-69927) मेनन आकाश जायाराजन, आर्टी
- (आईसी-69928) राघवेन्द्र सी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69929) शांतनु झारखंडी, एसी
- (आईसी-69930) सतबीर सिंह, आर्टी
- (आईसी-69931) स्यालिन एरोकिया रेक्स, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69932) हिम्मत सिंह बंगारी, एओसी
- (आईसी-69933) अभिताज शर्मा, आर्टी
- (आईसी-69934) दीपक चौधरी, मैक
- (आईसी-69935) ईश्वर आर वेंकटेश, इंजीनियर्स
- (आईसी-69936) जसप्रीत सिंह, आर्टी
- (आईसी-69937) निधेश सिंह, आर्टी
- (आईसी-69938) सुर्वे गिरीश यशवंत, आर्टी
- (आईसी-69939) सिद्धार्थ श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69940) विजय कुमार, एएडी
- (आईसी-69941) अमित कुमार मिश्रा, इंजीनियर्स
- (आईसी-69942) अबलक्ष्य दत्ता, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69943) मनीष कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69944) आर शिवा रामा कृष्णन, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69945) कल्याण मोहन पटनायक, ईएमई
- (आईसी-69946) भागवत निलेश मारुती, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69947) कौतुक श्रीवास्तव, आर्टी
- (आईसी-69949) प्रिंस पी कुरियन, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69950) अरविन्द अविनाश, आर्टी
- (आईसी-69951) प्रतिक सक्सेना, ईएमई
- (आईसी-69952) अक्षय कुमार, आर्टी
- (आईसी-69953) अंशुल रावत, इंजीनियर्स
- (आईसी-69954) अतुल कुमार श्रीवास्तव, आर्टी
- (आईसी-69955) विमल कुमार, एओसी
- (आईसी-69956) सौरभ राजपूत, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69957) रंजन बनर्जी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69958) अमित कुमार रोशन, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69959) कृष्ण चन्द्र गौड़, आर्टी
- (आईसी-69960) जगन्नाथ बल्लभ कौशिक मोहन्ती, एएडी
- (आईसी-69961) अश्वनी कुमार प्रधान, ईएमई
- (आईसी-69962) जितेन्द्र यादव, आर्टी
- (आईसी-69963) रंजीत सिंह बिष्ट, मैक
- (आईसी-69964) सुनील पुन्डीर, आर्टी
- (आईसी-69965) विनीत शर्मा, एएससी
- (आईसी-69966) जितेन्द्र सिंह सांगवान, एसी
- (आईसी-69967) मनोज कुमार पाण्डेय, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69968) सौरभ राणा, सिग्नल्स
- (आईसी-69969) लव कुमार छेत्री, ईएमई
- (आईसी-69970) रवि चन्द्र ए, इंजीनियर्स
- (आईसी-69971) आशुतोष गुप्ता, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69972) लौरेमबम सूरज कुमार मैतैई, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69973) गजदीप पाल, आर्टी
- (आईसी-69974) प्रकाश सिंह भंडारी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69975) आदित्य वंका, इंजीनियर्स
- (आईसी-69976) आशीष टंडन, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69977) अरविन्द सिंह, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69978) मिलन सिंह, एओसी
- (आईसी-69979) मोहित काकरान, इंजीनियर्स
- (आईसी-69980) नीरज जोशी, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69981) दीपक कुमार, एएससी
- (आईसी-69982) रतिकान्त परिडा, इन्फैन्ट्री
- (आईसी-69983) बिजेन्द्र सिंह रावत, ईएमई
- (आईसी-69984) अरूण नेगी, इंजीनियर्स
- (आईसी-69985) पराग शर्मा, इन्फैन्ट्री

- (आईसी-69986) घन बहादुर राना, इंजीनियर्स
 (आईसी-69987) अभिषेक जोशी, आर्टी
 (आईसी-69988) वरूण प्राशर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69989) अतिक्यू उज्जामन, एओसी
 (आईसी-69990) सुमित शर्मा, मैक
 (आईसी-69991) दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, आर्टी
 (आईसी-69992) तुषार बचलस, आर्टी
 (आईसी-69993) सौरभ गुप्ता, ईएमई
 (आईसी-69994) गौरव रंजन, सिग्नल्स
 (आईसी-69995) उदय भनोट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-69996) गौरव सिंह ठाकुर, एएडी
 (आईसी-69997) शुभेन्दु शेखर, एओसी
 (आईसी-69998) अभिमन्यु पठनिया, इंजीनियर्स
 (आईसी-69999) अजय कुमार, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70000) रामटेके ललित देवेन्द्र, आर्टी
 (आईसी-70001) बिशाल सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70002) अंबर चड्ढा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70003) अय्यर ऋषिकांत रविन्द्रन, आर्टी
 (आईसी-70004) अनुराग आनंद, इंजीनियर्स
 (आईसी-70005) मनमोहन मिश्रा, आर्टी
 (आईसी-70006) अमित कुमार डिमरी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70007) प्रताप सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70008) आशुतोष सिंह, आर्टी
 (आईसी-70009) अनुप दास के, इंजीनियर्स
 (आईसी-70010) आशीष जी कुमार, ईएमई
 (आईसी-70011) अंकुर गौतम, आर्टी
 (आईसी-70012) राहुल चौहान, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70013) मनीष थापा, इन्ट
 (आईसी-70014) महिप सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70015) मोहम्मद हयात, आर्टी
 (आईसी-70016) सौमिक कुमार गांगुली, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70017) गौरव शर्मा, इंजीनियर्स
 (आईसी-70018) निखिल राज जैनवी, इंजीनियर्स
 (आईसी-70019) किरण कुमार रेड्डी के, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70020) संजय फ्रेन्क, आर्टी
 (आईसी-70021) अशीष सिंह, आर्टी
 (आईसी-70022) विरेन्द्र सिंह कोटेचा, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70023) अभिमन्यु सिंह, एसी
 (आईसी-70024) जयवर्धन पाण्डेय, इंजीनियर्स
 (आईसी-70025) नरेन्द्र सिंह, सिग्नल्स
 (आईसी-70026) आशीष सिंह, ईएमई
 (आईसी-70027) मुक्तेश सुरी, एसी
 (आईसी-70028) सोजित एस, सिग्नल्स
 (आईसी-70029) अमित शंकर झा, इंजीनियर्स
 (आईसी-70030) संजय कुमार, मैक
 (आईसी-70031) मनोज कुमार धनखेर, एओसी
 (आईसी-70032) कमल भट्ट, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70033) दीपक पाण्डेय, सिग्नल्स
 (आईसी-70034) शशि शेखर, मैक
 (आईसी-70035) उपेन्द्र कुमार, एसी
 (आईसी-70036) गिरीश गुरजाल, आर्टी
 (आईसी-70037) सागर राजेन्द्र सोनकांबले, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70038) अरूण यादव, आर्टी
 (आईसी-70039) पटनकर कौस्तुभ सुनील, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70040) विनोद सिंह, एसी
 (आईसी-70041) रोहन महाजन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70042) विक्रांत प्रताप सिंह, एएडी
 (आईसी-70043) गंगेश मणि त्रिपाठी, ईएमई
 (आईसी-70044) सौरभ गुरूंग, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70045) दिवाकर शर्मा, एसएस
 (आईसी-70046) मयंक बंसल, आर्टी
 (आईसी-70047) गौरव गर्ग, इंजीनियर्स
 (आईसी-70048) अनिल कुमार व्यास, आर्टी
 (आईसी-70049) विकास मलिक, ईएमई
 (आईसी-70050) पंकज गैरोला, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70051) सतिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70052) जस्टीन रोशन लकरा, एओसी
 (आईसी-70053) विपिन सिंह राणा, इंजीनियर्स

(आईसी-70054) संदीप सांगवान, ईएमई	(आईसी-70088) अक्षय सेहरावत, एसी
(आईसी-70055) कपिल हुड्डा, आर्टी	(आईसी-70089) रंजीत कुमार बी आर, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70056) कौस्तुभ सतीश दिघडे, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70090) अयन विश्वास, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70057) रोहित मेहला, एएडी	(आईसी-70091) राहुल चौरसिया, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70058) भोसले धनंजय अर्जुन, आर्टी	(आईसी-70092) भरत सेठी, एएससी
(आईसी-70059) वैभव लाटियान, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70093) सौरभ सबलोक, एएससी
(आईसी-70060) संतोष कुमार यादव, आर्टी	(आईसी-70094) महिम शर्मा, एओसी
(आईसी-70061) सुरेश चन्द्रा, एओसी	(आईसी-70095) कार्तिक कन्नन एम, सिग्नल्स
(आईसी-70062) अभिमन्यु आर वैद्य, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70096) हेम चंद्रा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70063) सौरभ गुप्ता, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70097) रपोल कार्थिक, ईएमई
(आईसी-70064) वरूण मेदीरत्ता, सिग्नल्स	(आईसी-70098) काकडे निरंजन अजीत, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-70065) मनेन्द्र प्रताप सिंह, एएससी	(आईसी-70099) रजत सांगवान, एसी
(आईसी-70066) अभिषेक सिन्हा, ईएमई	(आईसी-70100) गुरवीन सिंह दत्ता, आर्टी
(आईसी-70067) अमित मान, इंजीनियर्स	(आईसी-70101) अविलाश मोहन्ती, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70068) प्रीतम पुरुषोत्तम, इंजीनियर्स	(आईसी-70102) विवेक अहलावत, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70069) सत्यजीत अशोकराव गोडसे, इंजीनियर्स	(आईसी-70103) मानिक पानवार, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-70070) भोसले आदित्य शिवाजीराव, ईएमई	(आईसी-70104) सावंत अनिकेत संभाजी, आर्टी
(आईसी-70071) आलोक कुमार गुप्ता, एएडी	(आईसी-70105) गौरव सिन्धवानी, मैक इन्फैन्ट्री
(आईसी-70072) विकास कुमार गुप्ता, आर्टी	(आईसी-70106) योगेश कुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70073) रामेश्वर सिंह जामवाल, आर्टी	(आईसी-70107) अरशमिंदर सिंह, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70074) आदित्या, इंजीनियर्स	(आईसी-70108) खानजोडे रिथीक विकास, आर्टी
(आईसी-70075) आदित्य देब, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70109) प्रतीक बनाती, एओसी
(आईसी-70076) मानवेन्द्र, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70110) पवार अभिजीत संभाजी, इंजीनियर्स
(आईसी-70077) अनसिंगकर अनिकेत अनिरुद्ध, सिग्नल्स	(आईसी-70111) राहुल साम्याल, ईएमई
(आईसी-70078) सौरव पांडे, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70112) अग्रवाल यश अनुपकुमार, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70079) परेरा चार्ल्स, आर्टी	(आईसी-70113) मोहित कुमार, इंजीनियर्स
(आईसी-70080) ऐश्वर्य भटनागर, आर्टी	(आईसी-70114) अश्वनी सिंह राणा, इन्ट
(आईसी-70081) विश्वजीत मंडल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70115) हसबनीस अमेय राजीव, सिग्नल्स
(आईसी-70082) मंगसीदम अरवित सिंह, एसी	(आईसी-70116) कार्तिक वीरामणी, आर्टी
(आईसी-70083) आशुतोष सूद, एसी	(आईसी-70117) आशीष सिंह, इंजीनियर्स
(आईसी-70084) राकेश कुमार सिवाल, इन्फैन्ट्री	(आईसी-70118) येशु यादव, एएडी
(आईसी-70085) विनम्र गुप्ता, एएडी	(आईसी-70119) मनोज कुमार एन, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70086) शरत एस, आर्टी	(आईसी-70120) अतिन चड्ढा, इन्फैन्ट्री
(आईसी-70087) अभिनव मलिक, ईएमई	(आईसी-70121) तेजस शशिकान्त आखाडे, सिग्नल्स
	(आईसी-70122) अनिरुद्ध आहुजा, ईएमई

- (आईसी-70123) राजबीर सिंह बिष्ट, एससी
 (आईसी-70124) एस सुरेश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70125) रोहित सक्सेना, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70126) करनदीप सिंह, एससी
 (आईसी-70127) कोलाको एडवार्ड विलियम, एसी
 (आईसी-70128) प्रफुल्ल त्यागी, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70129) वी अनुप, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70130) सौरभ उपाध्याय, एसी
 (आईसी-70131) विकास कुमार, सिग्नल्स
 (आईसी-70132) अभिषेक सोलंकी, आर्टी
 (आईसी-70133) विशाल शर्मा, एएडी
 (आईसी-70134) मुकुल भारद्वाज, एसी
 (आईसी-70135) नार्वेकर रोहन राजन, इंजीनियर्स
 (आईसी-70136) अभिनव खरे, आर्टी
 (आईसी-70137) कमिली वेंकट हरीश, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70138) रोहन सक्सेना, आर्टी
 (आईसी-70139) डेनिस अन्थनी, इंजीनियर्स
 (आईसी-70140) प्रतीश कुमार एस, इंजीनियर्स
 (आईसी-70141) राकेश पी कृष्णन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70142) अभिमन्यु डैन, इन्फैन्ट्री
 (आईसी-70143) हिमांशु त्रिपाठी, ईएमई
 (आईसी-70156) संजय पटवाल, ईईसी
 (आईसी-70162) नितिन कुमार सिंह, ईईसी

--10 दिसम्बर 2009

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (एस सी)

ले से कप्तान

एससी सं., नाम व आर्म

- (00534) नीरज कुमार, एओसी
 (00535) पी खातिरवेलु, सिग्नल्स
 (00536) बिक्रम सिंह रावत, एएडी
 (00537) सोमसुन्दरम पी, इंजीनियर्स
 (00538) हरि बाबू आर, ईएमई
 (00539) प्रवीण कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री
 (00540) बीजु आर, एसी

- (00541) दीपक सिंह पटवाल, आर्टी
 (00542) राम सिंह, ईएमई
 (00543) दिलीप सिंह नाथावत, इन्फैन्ट्री
 (00544) देवेन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री
 (00545) अमित थापा, आर्टी
 (00546) मधु पी सी, इन्फैन्ट्री
 (00547) ऋषि मनराल, इन्फैन्ट्री
 (00548) पोंडप्पा कोटगी, इंजीनियर्स
 (00549) तारकेश्वर पान्डेय, आर्टी

--10 दिसम्बर 2009

अल्पकालीन सेवा कमीशन (एसएससीडब्ल्यू)

ले से कप्तान

एस एस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि, तथा कप्तान दिनांक से

(एसएस-43781) हरजोत कौर, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43783) रूप कुंवर निरवान, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43784) मनाली श्रीवास्तव, सिग्नल्स, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43786) श्रुतिका दत्ता, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43787) लोहारेकर गिरिजा लक्ष्मीकांत, सिग्नल्स, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43789) गजेल्ले स्तुति सरीन, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43792) बुशरा जैरी, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43793) प्रते प्रदन्य जयवंत, ईएमई, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

(एसएस-43794) आर संध्या, सिग्नल्स, 22 सितम्बर 2007, एसएससीडब्ल्यू 02 (टी), 22 अक्टूबर 2007/22 अक्टूबर 2009

अल्पकालीन सेवा कमीशन

ले से कप्तान

(एसएस-42415) धीरज कुमार गुप्ता, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42420) क्षेत्रियुम चन्द्र कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42421) कबीर लाम्बा, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42423) नायनेश शर्मा, एससी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42431) घनश्याम, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42432) राधा कृष्ण, आर्टी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42434) देवेन्द्र लाम्बा, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42436) जिनिया क्रिस्टोफर बोसको, एसी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42442) नायर निजिल बलान, इंजीनियर्स, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42443) विनायक कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42455) चन्द्रपाल सिंह चहार, एएडी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42457) मनोज कुमार राय, आर्टी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42463) स्वर्णिम प्रभात, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42466) जे पार्थसारथी, इंजीनियर्स, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42468) असित चतुर्वेदी, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42477) एम मनु नायर, सिग्नल्स, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42482) राहुल मिश्रा, एओसी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42488) अमित कुमार द्विवेदी, आर्टी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42497) दीपक कुमार साहु, एएडी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42513) देशपांडे सौरभ रामचन्द्र, आर्टी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42518) परदीप कुमार खर्ब, एससी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42533) प्रशांत चन्द, मेक, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42538) मोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42540) अमित राना, एसी, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

(एसएस-42541) शशांक मुद्गल, ईएमई, 17 मार्च 2007, एसएससी 83(एनटी), 17 अक्टूबर 2007/17 अक्टूबर 2009

जसवंत सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

थल सेना विभाग

सं 356, दिनांक 08 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

रक्षा तथा सुरक्षा कोर

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार संत लाल (सं. 10135107ए अब जेसी-842661एच),
10 फरवरी 2010*

हवलदार भरत मिश्रा (सं. 6906508एफ अब जेसी-842663एन),
11 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार सिंघारा सिंह (सं. 1256008वाई अब जेसी-842694एन),
12 फरवरी 2010**

**(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 दिसम्बर 2009)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 4174213डब्ल्यू अब जेसी-842705पी),
08 जनवरी 2010***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

हवलदार खेम बहादुर छेत्री (सं. 5844342के अब जेसी-842708एच),
12 फरवरी 2010****

हवलदार बिजेन्द्र सिंह (सं. 10404594एच अब जेसी-842710ए),
11 फरवरी 2010****

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 10404392एफ अब जेसी-842714डब्ल्यू),
03 फरवरी 2010****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार बालक राम (सं. 10404307एन अब जेसी-842715वाई),
17 फरवरी 2010****

हवलदार बलवान सिंह (सं. 10465631एफ अब जेसी-842718एम),
15 फरवरी 2010****

हवलदार भाग्य नारायण सिंह (सं. 4253360ए अब जेसी-842721एम),
01 फरवरी 2010****

****(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

हवलदार गौर चन्द्र स्वैन (सं. 6366645एम अब जेसी-842649एफ),
09 दिसम्बर 2009*

हवलदार रमेश चन्द्र पान्डे (सं. 10181336के अब जेसी-
842651वाई), 15 दिसम्बर 2009*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 26 सितम्बर 2009)

हवलदार श्याम सिंह (सं. 10181537एच अब जेसी-842665वाई),
11 जनवरी 2010**

हवलदार बिहारी सिंह (सं. 10181483एम अब जेसी-842667के),
29 दिसम्बर 2009**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009)

हवलदार इन्द्रा लाल (सं. 10388840डब्ल्यू अब जेसी-842677एन),
08 दिसम्बर 2009***

*** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009)

हवलदार सुखचैन सिंह (सं. 14452513एन अब जेसी-842685एम),
27 जनवरी 2010****

हवलदार नेत्र पाल सिंह (सं. 10302004एल अब जेसी-842686पी),
18 जनवरी 2010****

**** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

हवलदार पहप सिंह (सं. 2472155एल अब जेसी-842695डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010*****

हवलदार राम अवतार (सं. 2672940एल अब जेसी-842703के),
02 फरवरी 2010*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010)

हवलदार बिजोय कुमार गुरुंग (सं. 5747776ए अब जेसी-842711एच),
01 फरवरी 2010*****

हवलदार रमेश चन्द (सं. 3976796एन अब जेसी-842712एल),
01 फरवरी 2010*****

हवलदार सुरेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 10404489एम अब जेसी-
842716एफ), 04 फरवरी 2010*****

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 10465653ए अब जेसी-842719पी),
01 फरवरी 2010*****

***** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विष्णु पडा बरमन (सं. 13971468एन अब
जेसी-842681डब्ल्यू), 20 फरवरी 2010*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009)

हवलदार (लिपिक) बशिष्ठ भारती (सं. 15359807एल अब
जेसी-842707ए), 01 फरवरी 2010*****

***** (नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन तथा भत्तों पर
प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010)

प्रदीप कुमार
अवर सचिव

थलसेना विभाग (एमजीओ) ईएमई कार्मिक

सं. 357, दिनांक 08 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित
पदोन्नतियां करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक स्माल आर्म्स के रैंक में

कामेश्वर जेना (सं. 14599194एम अब जेसी-764313एम),
01 अक्टूबर 2009

एस वी सत्या रमेश (सं. 14608714एच अब जेसी-764314पी),
01 अक्टूबर 2009

जया कुमार एस के (सं. 14610074डब्ल्यू अब जेसी-764315एक्स),
12 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक गन के रैंक में

पी सुरेश कुमार (सं. 14622214के अब जेसी-764316ए),
03 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

प्रमोद कुमार यादव (सं. 14622229एम अब जेसी-764317एच),
07 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

भरीयप्पन वी (सं. 14622279एक्स अब जेसी-764318एल),
06 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक अप्टो इलैक्ट्रॉनिक्स के रैंक में

डी राजेन्द्रन (सं. 14618389पी अब जेसी-764319एन), 05 नवम्बर
2009/01 नवम्बर 2009*

शिगवान प्रशांत (सं. 14618635पी अब जेसी-764320एच),
04 नवम्बर 2009/01 नवम्बर 2009 *

अज़ाद कुमार राय (सं. 14618675डब्ल्यू अब जेसी-764321एल),
01 नवम्बर 2009

सुभाष कुमार (सं. 14618678के अब जेसी-764322एन), 01 नवम्बर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

ओमवीर सिंह सोम (सं. 14586587के अब जेसी-764323डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2009

याद राम (सं. 14586644ए अब जेसी-764324वाई), 03 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

थान सिंह रावत (सं. 14586655एम अब जेसी-764325एफ),
01 अक्टूबर 2009

गुलजार सिंह (सं. 14586812एन अब जेसी-764326के), 01 नवम्बर
2009

महेन्द्र सिंह (सं. 14586814वाई अब जेसी-764327एम), 01 नवम्बर
2009

हरभजन सिंह (सं. 14586815एफ अब जेसी-764328पी),
01 नवम्बर 2009

हरूदा नन्दा स्वेन (सं. 14586151वाई अब जेसी-764329एक्स),
01 नवम्बर 2009

ज्ञानुदिन खान (सं. 14594234वाई अब जेसी-764330एम),
01 दिसम्बर 2009

रजनी कांता राय (सं. 14605076एक्स अब जेसी-764331पी),
01 दिसम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार पेंटर और डेकोरेटर के रैंक में

सतीश चन्द्र (सं. 14578442के अब जेसी-764333ए), 01 अक्टूबर
2009

मजोज कुमार (सं. 14600093एन अब जेसी-764334एच),
20 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

मनोज कुमार साहू (सं. 14583008एफ अब जेसी-764335एल),
13 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

अजीत सिंह (सं. 14582788एल अब जेसी-764336एन), 13 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

दिनेश गोस्वामी (सं. 14583328डब्ल्यू अब जेसी-764337डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

राज पाल हंस (सं. 14583255पी अब जेसी-764338वाई),
19 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

विर्शा सिंह (सं. 14583361एन अब जेसी-764339एफ), 05 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009 *

अनिरुद्धन बी (सं. 14583363वाई अब जेसी-764340डब्ल्यू),
03 अक्टूबर 2009/01 अक्टूबर 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

राम बली (सं. 14561203वाई अब जेसी-764178के), 03 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009 *

प्रीत सिंह (सं. 14557479एक्स अब जेसी-763398एफ), 20 जुलाई
2009/10 मई 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक इलैक्ट के रैंक में

ए एन सिंह (सं. 14608743एल अब जेसी-763024एल), 17 अगस्त
2009/01 सितम्बर 2008 *

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

मन मोहन मिश्रा (सं. 14564845वाई अब जेसी-764202पी),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑपरेटर और ड्राईवर (रिकवरी)
के रैंक में

कैलाश चन्द्र सामल (सं. 14561774एक्स अब जेसी-764190एल),
01 अगस्त 2009

के चन्द्र पलाय सिंह (सं. 14561780एल अब जेसी-764191एन),
08 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

साहिदुल इस्लाम (सं. 14561781एन अब जेसी-764192डब्ल्यू),
01 अगस्त 2009

हरेन दुअरौह (सं. 14561892एल अब जेसी-764193वाई),
03 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

धीरेन्द्र कुमार (सं. 14561930डब्ल्यू अब जेसी-764194एफ),
11 अगस्त 2009/01 अगस्त 2009 *

नरेन्द्र नारायण कनवर (सं. 14561952पी अब जेसी-764195के),
01 अगस्त 2009

लभालालो केशवरा राव (सं. 14562247एच अब जेसी-764196एम),
01 अगस्त 2009

नस्कर पाल (सं. 14559455एम अब जेसी-764197पी), 05 अगस्त
2009/01 अगस्त 2009 *

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एमटी) के रैंक में

एस रजैया (सं. 14583259एल अब जेसी-764198एक्स), 01 सितम्बर
2009

राजेन्द्र यादव (सं. 14578785ए अब जेसी-764199ए), 01 सितम्बर
2009

एच एस यादव चौधरी (सं. 14581437के अब जेसी-764200के),
01 सितम्बर 2009

अशोक वामन ताम्बे (सं. 14582312वाई अब जेसी-764201एम),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

चंद्रैया के (सं. 14605092पी अब जेसी-764203के), 01 सितम्बर
2009

फूल चंद (सं. 14605120डब्ल्यू अब जेसी-764204ए), 01 सितम्बर
2009

वाहिद खान (सं. 14605123के अब जेसी-764205एच), 01 सितम्बर
2009

मदन मोहन सरकार (सं. 14600136एक्स अब जेसी-764206एल),
01 सितम्बर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक बी व्हीकल के रैंक में

इमरत लाल (सं. 14619868एच अब जेसी-763954एम), 16 जून
2009/01 मई 2009*

मदनजीत सिंह (सं. 14622029डब्ल्यू अब जेसी-764147के), 01 अगस्त
2009

हवलदार से नायब सूबेदार मास्टर टेक कॉम्यूनिकेशन के रैंक में

ए राज कुमार (सं. 14618499के अब जेसी-764071पी), 31 अक्टूबर
2009/01 जून 2009*

क्षीरसागर विकास शंकर (सं. 14617920एफ अब जेसी-764055एक्स),
24 अक्टूबर 2009/01 जून 2009*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (एसडी) के रैंक में

आनंद सिंह (सं. 14579883एम अब जेसी-764242डब्ल्यू), 01 सितम्बर
2009

एम डी अब्दुल सलाम (सं. 14579617एन अब जेसी-764261एफ),
01 अक्टूबर 2009/01 मार्च 2009*

जगदीश सिंह (सं. 14584123एन अब जेसी-764263एम), 01 सितम्बर
2009

बलराम (सं. 14584437पी अब जेसी-764264पी), 11 सितम्बर
2009/01 सितम्बर 2009*

प्रेम दास (सं. 14584456ए अब जेसी-764265एक्स), 01 अक्टूबर
2009

गोविन्द सिंह (सं. 14585438के अब जेसी-764266ए), 01 अक्टूबर
2009

गोर्धन राम करेल (सं. 14585874एफ अब जेसी-764267एच),
01 अक्टूबर 2009

कृष्ण सिंह (सं. 14586315के अब जेसी-764268एल), 01 अक्टूबर
2009

सुदर्शन कुमार (सं. 14586317पी अब जेसी-764269एन), 01 अक्टूबर
2009

विधान चन्द्र नाथ (सं. 13616046के अब जेसी-764271एल),
01 अक्टूबर 2009

मोती लाल (सं. 14586559एक्स अब जेसी-764273डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2009

विजय बहादुर सिंह (सं. 14586445एम अब जेसी-764274वाई),
01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार टेक रडार के रैंक में

कृष्णा नंद भट (सं. 14569227एक्स अब जेसी-764248एक्स),
01 अक्टूबर 2009

कृष्ण सिंह (सं. 14563261पी अब जेसी-764249ए), 01 अक्टूबर
2009

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14564122एक्स अब जेसी-764250पी), 05 अक्टूबर
2009/01 अक्टूबर 2009*

सुरेश कुमार (सं. 14574563एन अब जेसी-764251एक्स), 01 अक्टूबर
2009

जौय राम चराड़ मुरिआ (सं. 14561512एफ अब जेसी-764252ए),
01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक बी व्हीकल के रैंक में

भगवान दास साहू (सं. 14561527के अब जेसी-764253एच),
01 अक्टूबर 2009

बंकिम चंद्र साहू (सं. 14561778एन अब जेसी-764254एल), 01 अक्टूबर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स के रैंक में

अरून कुमार पौद्दार (सं. 14570492ए अब जेसी-764255एन),
01 अक्टूबर 2009

प्रदीप कुमार (सं. 14572205के अब जेसी-764256डब्ल्यू), 01 अक्टूबर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार ऑटो टेक इलेक्ट बी व्हीकल के रैंक में

लालमन (सं. 14559665एम अब जेसी-764257वाई), 01 अक्टूबर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार लिम्ब मेकर के रैंक में

मुत्तू के एम (सं. 14578242एन अब जेसी-764258एफ), 01 अक्टूबर
2009

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राफ्ट मैन (टेक) के रैंक में

मेथानी मल्लिकार्जुन राव (सं. 14562620एक्स अब जेसी-764259के),
01 अक्टूबर 2009

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

पवार किसन दत्तात्रेय (सं. 14603836डब्ल्यू अब जेसी-764275एफ),
01 अक्टूबर 2009

बिजेन्द्र सिंह (सं. 14605130ए अब जेसी-764276के), 01 अक्टूबर
2009

*(पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है)

एन के कश्मीरा
अपर सचिव

सं. 358, दिनांक 08 जून 2010--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां
करते हैं :--

नियमित सेना
इन्फैन्ट्री
मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार जमील अहमद (सं. 14917214वाई अब जेसी-421501एफ),
27 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार राकेश कुमार वर्मा (सं. 14918366एम अब जेसी-421502के),
20 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार मुकल्ला जगदीश्वरा राव (सं. 14918440एच अब
जेसी-421503एम), 20 जनवरी 2010*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

हवलदार दिलिप कुमार (सं. 14913919एन अब जेसी-421504पी),
01 फरवरी 2010

हवलदार हस्ती रावल (सं. 14917092ए अब जेसी-421505एक्स),
01 फरवरी 2010

हवलदार चंद्रीका राय (सं. 14918407एल अब जेसी-421506ए),
01 फरवरी 2010

क्वचित कोर

स्थायी नायब रिसालदार के रैंक में

दफादार दराब सिंह गुर्जर (सं. 1088639एल अब जेसी-243794एन),
02 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2009 से दी जाती है)

दफादार एस महालिंगम (सं. 1089780वाई अब जेसी-243930वाई),
17 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार बिसवास (सं. 1088192वाई अब जेसी-244133ए),
08 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार बिजेन्द्र सिंह (सं. 1088389पी अब जेसी-244002पी),
14 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार गणेश प्रसाद पटेल (सं. 1088495एन अब जेसी-244134एच),
08 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार रमेश चन्द्र शर्मा (सं. 1089177डब्ल्यू अब जेसी-244135एल),
08 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार भंवर सिंह गिल (सं. 15461987एम अब जेसी-244025डब्ल्यू),
01 जनवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कुंज बिहारी (सं. 1087763ए अब जेसी-244072एन),
14 जनवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार संजय कुमार वानी (सं. 1099098पी अब जेसी-244073डब्ल्यू),
01 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार नेत्र सिंह (सं. 1099350एच अब जेसी-244131पी), 10 फरवरी
2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार जॉन बोसको (सं. 1099501डब्ल्यू अब जेसी-244130एम),
11 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार दिग्विजय कुमार वर्मा (सं. 1099557एच अब जेसी-244136एन), 12 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रदीप कुमार मिश्रा (सं. 1099560एच अब जेसी-244137डब्ल्यू), 16 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार भूपेन्द्र सिंह (सं. 1098753डब्ल्यू अब जेसी-244138वाई), 11 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार प्रिंजन कुमार (सं. 1099498एफ अब जेसी-244132एक्स), 01 फरवरी 2010*

दफादार सुखजीन्द्र सिंह (सं. 15461855वाई अब जेसी-244114पी), 15 फरवरी 2010*

*(नायब रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार राजेन्द्र सिंह (सं. 15463997पी अब जेसी-244014के), 02 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप (सं. 15464249एन अब जेसी-244015एम), 02 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

दफादार इन्द्रजीत सिंह (सं. 1087632पी अब जेसी-243920पी), 12 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

दफादार यशपाल सिंह (सं. 1098825पी अब जेसी-244016पी), 06 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2009 से दी जाती है)

दफादार चन्द्रपाल सिंह (सं. 1088659वाई अब जेसी-244009वाई), 06 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2009 से दी जाती है)

दफादार तेजपाल (सं. 1084189एफ अब जेसी-243933एम), 16 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार उधम सिंह (सं. 1098829एल अब जेसी-244023एल), 02 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार खुशाल सिंह (सं. 1099469एम अब जेसी-243989वाई), 05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार सुखबीर (सं. 1546223के अब जेसी-244037एल), 22 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार सुभास चन्द्र बागमार (सं. 1088424एम अब जेसी-244061एफ), 23 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार प्रताप सिंह (सं. 1089767पी अब जेसी-243972एल), 16 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार मोहन लाल (सं. 1089821एक्स अब जेसी-243973एन), 16 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार वी देवराजन (सं. 1099474एक्स अब जेसी-244039डब्ल्यू), 22 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार पवन सिंह (सं. 15461940एफ अब जेसी-244037एन), 24 दिसम्बर 2009*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार पवन कुमार (सं. 1085827एफ अब जेसी-244077एम), 03 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार हरपाल सिंह (सं. 1087167एन अब जेसी-244045के), 03 जनवरी 2010

दफादार सलविन्द्र सिंह (सं. 1087230एक्स अब जेसी-244046एम), 03 जनवरी 2010

- दफादार अझीझ अली (सं. 1088805डब्ल्यू अब जेसी-244049ए),
04 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार सरवजीत सिंह (सं. 1088774एल अब जेसी-244044एफ),
01 जनवरी 2010
- दफादार अजी कुमार के एस (सं. 1089361एफ अब जेसी-
244012वाई), 01 जनवरी 2010
- दफादार एस रामा मुर्ती (सं. 1089571वाई अब जेसी-244075वाई),
01 जनवरी 2010
- दफादार मोहिन्द्र सिंह (सं. 1089583डब्ल्यू अब जेसी-244076एफ),
01 जनवरी 2010
- दफादार प्रभाती लाल (सं. 1089596एन अब जेसी-244013एफ),
01 जनवरी 2010
- दफादार मोहन सिंह (सं. 1089673एक्स अब जेसी-244054एल),
01 जनवरी 2010
- दफादार यशराज सिंह (सं. 1089747एफ अब जेसी-244055एक्स),
01 जनवरी 2010
- दफादार बलविन्द्र सिंह (सं. 1089851वी अब जेसी-244048एक्स),
02 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार भगवन्त सिंह (सं. 1089898ए अब जेसी-243977के),
01 जनवरी 2010 *
- दफादार अमर सिंह (सं. 1098666एच अब जेसी-244040एल),
01 जनवरी 2010
- दफादार भारगवेन्द्र सिंह बघेल (सं. 1098820डब्ल्यू अब जेसी-
244001एम), 01 जनवरी 2010
- दफादार महेन्द्र सिंह (सं. 1099080वाई अब जेसी-244071एल),
02 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार रतबीर सिंह (सं. 1099335एन अब जेसी-243978एम),
07 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार मनजीत सिंह (सं. 15461544एल अब जेसी-244076के),
03 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार वि. कुमारसन (सं. 15462717के अब जेसी-244051एक्स),
01 जनवरी 2010
- दफादार संजीव कुमार (सं. 1546232पी अब जेसी-244052ए),
08 जनवरी 2010
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)
- दफादार करमजीत सिंह (सं. 15463657एम अब जेसी-244041एन),
01 जनवरी 2010
- दफादार ब्रह्म प्रकाश (सं. 1088357एम अब जेसी-243945एफ),
10 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार जरनेल सिंह (सं. 1088924के अब जेसी-244056डब्ल्यू),
07 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार जसवीर सिंह (सं. 1098739के अब जेसी-244065एक्स),
03 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार राकेश कुमार (सं. 15463276एल अब जेसी-244057वाई),
07 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार मन मोहन (सं. 15463387एक्स अब जेसी-244058एफ),
13 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार राजेश कुमार (सं. 15463928वाई अब जेसी-244059के),
07 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार राकेश कुमार (सं. 15464022ए अब जेसी-244060वाई),
07 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)
- दफादार रविन्द्र लाल (सं. 1085033डब्ल्यू अब जेसी-244068एल),
11 जनवरी 2010 *
- *(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
10 अक्टूबर 2009 से दी जाती है)

दफादार कुलदीप सिंह (सं. 1089615एन अब जेसी-243961वाई),
09 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार होशियार सिंह (सं. 1098855एम अब जेसी-244026वाई),
13 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार गुरमीत सिंह (सं. 15461063वाई अब जेसी-244095पी),
05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 नवम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार मुकेश कुमार (सं. 1099184ए अब जेसी-244070एच),
05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
06 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार दादू लाल (सं. 1089893एफ अब जेसी-244098एच),
08 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
29 दिसम्बर 2009 से दी जाती है)

दफादार रती राम (सं. 1087756के अब जेसी-244029एम), 01 जनवरी
2010

दफादार राज करन (सं. 1089616डब्ल्यू अब जेसी-244101एक्स),
12 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सुरेन्द्र सिंह राठौर (सं. 1098720एल अब जेसी-244103एच),
05 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार ओम प्रकाश (सं. 1099441एम अब जेसी-244074वाई),
03 जनवरी 2010*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 जनवरी 2010 से दी जाती है)

दफादार सायमन मथू (सं. 1099576एन अब जेसी-244030एफ),
01 जनवरी 2010

जे राय चौधरी
अवर सचिव

सेना शाखा

मुख्य प्रशासन अधिकारी का कार्यालय

सं. 359, दिनांक 09 जून 2010--राष्ट्रपति स से मु आशुलिपिकीय सेवा
के निजी सचिव (समूह 'ख' राजपत्रित) श्री एन के वशिष्ठ (जन्म तिथि --
01 मई 1959) को वेतन बैंड--III, ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए सहित
15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 16 फरवरी 2009 से
प्रधान निजी सचिव के रूप में नियमित पदोन्नति प्रदान करने के लिए सहर्ष
मंजूरी प्रदान करते हैं।

ए के लारोइया
उप मुप्रअ (प्रशा)

सेना शाखा

सं. 360, दिनांक 09 जून 2010--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी
की दिनांक 06 दिसम्बर 2000 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा
कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश
74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान
करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

शुद्धि-पत्र

भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 09 नवम्बर 2002 में प्रकाशित रक्षा
मंत्रालय की अधिसूचना में कप्तान शिव कुमार गौतम (एमआर-07670के),
एएमसी, की वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता।

के स्थान पर :

यह पढ़ा जाए :

31-11-1996

30-11-1996

यश पांडे

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक ससेचिसे (मा सं)

सं. 361, दिनांक 09 जून 2010--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग
अधिकारी, श्री ए के सूद [जन्म-तिथि : 02 मार्च 1950 तथा चयन सूची
(वरिष्ठता कोट)-2003] की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें
31 मार्च 2010 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

के मुरली
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 362, दिनांक 09 जून 2010--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर
श्रीमती अमरजीत कौर कोहली, तकनीकी अधिकारी 'सी' ई आर एण्ड आई

पी आर, डीआरडीओ मुख्यालय से 31 मार्च 2010 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गई हैं और 01 अप्रैल 2010 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानांतरित हो गई हैं।

बी बी शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

शुद्धि-पत्र

सं. 363, दिनांक 10 जून 2010--रक्षा मंत्रालय की दिनांक 05 अक्टूबर 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत इस मंत्रालय के अधिकारियों की वर्ष 2003 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) में नियुक्ति के संबंध में क्रम सं. 2 पर श्री बी के शर्मा (सी एस एल सं. 4232) के नाम के सामने नियुक्ति की वास्तविक तारीख 25 मार्च 2004 को 20 अगस्त 1999 पढ़ा जाए।

रक्षा मंत्रालय की दिनांक 08 फरवरी 2009 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत वर्ष 2004--2008 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना की वास्तविक तारीख 08 फरवरी 2009 को 08 फरवरी 2010 पढ़ा जाए।

के मुरली
अवर सचिव

सेना शाखा लेफ्टि से कप्तान शुद्धि-पत्र

सं. 364, दिनांक 10 जून 2010--भारत के राजपत्र संख्या 202/2001 में दिनांक 14 अप्रैल 2001 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "लेफ्टि से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आईसी-58561, 58562, 58563, 58564, 58566, 58567, 58568, 58569, 58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575, 58577, 58578, 58579, 58580, 58581, 58582, 58583, 58584, 58586, 58587, 58588 एवं 8589 के विरुद्ध निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : 08 दिसम्बर 2000

पढ़ा जाए : 12 दिसम्बर 2000

भारत के राजपत्र संख्या 270/2002 में दिनांक 04 मई 2002 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "लेफ्टि से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आईसी-59534, 59535, 59536, 59537, 59538, 59539, 59541, 59542, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547, 59548, 59549, 59550, 59551, 59552, 59553, 59554, 59555, 59556, 59557, 59558, 59560, 59561, 59562, 59563, 59564, 59565, 59566, 59567, 59568, 59569, 59570, 59573, 59574, 59575, 59576, 59577, 59578, 59579, 59580, 59581, 59582, 59583, 59584, 59585, 59586, 59587, 59588, 59589, 59590, 59591, 59593, 59594, 59595 एवं 59598 के विरुद्ध निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : 07 दिसम्बर 2001

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 2001

भारत के राजपत्र में दिनांक 20 मार्च 2004 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "लेफ्टि से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आईसी-59540, 59571, 59572, 59592 एवं 59597 के विरुद्ध निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : 07 दिसम्बर 2001

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 2001

भारत के राजपत्र संख्या 89/2005 में दिनांक 12 फरवरी 2005 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "लेफ्टि से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में आईसी-59559 के विरुद्ध निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

के बदले : 07 दिसम्बर 2001

पढ़ा जाए : 11 दिसम्बर 2001

जसवन्त सिंह
संयुक्त निदेशक
एमएस-8सी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd July 2010

No. 335, dated 1st June 2010—The President is pleased to appoint Shri Naveen Kumar, ITS (1995) on his transfer from Department of Telecommunications as Director in the Ministry of Defence w.e.f. 08.03.2010 (FN) for a period of five years i.e. upto 07.03.2015, or until further orders, whichever is earlier.

Consequent upon inclusion of his name in the Senior Selection Grade (Director) Select List of CSS for the year 2009 by the Department of Personnel and Training vide their OM No. 3/4/2009-CS.I(D) dated the 8th March, 2010, the President is pleased to appoint Shri R C Gupta, CSS, Deputy Secretary as Director of CSS in the Ministry of Defence on regular basis w.e.f. 12.03.2010 (AN).

The President is pleased to appoint Shri Himank Kothiyal, IIS(93) as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri A K Antony) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/-) w.e.f. 25.05.2009 (F/N) till the Minister demits office or until further orders, whichever is earlier.

K MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 336, dated 1st June 2010—The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Major
(Ante Date Commission)

DS-12326H Smita M Kadam, 09 Jan 2009

(Granted antedate seniority for pay and promotion w.e.f. 12.12.2003, by virtue of holding previous full pay commissioned service of 05 years from 07.12.1994 to 06.12.1999 in the rank of Capt and 28 days terminal leave which will not count for gratuity. Her seniority in the rank of Major will reckon from 12.06.2008)

To be Capt (on Probation)

DS-12273P Mukesh Kumar, 07 Jan 2008

[with seniority for pay and promotion from 07.07.2007 (includes 06 months ante date for paid job of a Lecturer in Conservative & Endodontics Dept in Mithila Minority Dental College & Hospital, Dharbhanga (Bihar) during the period from 04.04.2007 to 31.12.2007, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04.07.2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

DS-12318K Ajay Sahni, 02 Jan 2009

[with seniority for pay and promotion from 02.07.2008 includes 06 months ante date for paid job of a Demonstrator in MNDV Dental College & Hospital, Tatul, Oachghat, Solan, during the period from 01.04.2008 to 31.12.2008, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04.07.2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled

DS-12345N Adarsh Sharma, 17 Feb 2009

[with seniority for pay and promotion from 17.08.2008 includes 06 months ante date for paid job of a House Surgeon in Department of Periodontics in Indira Gandhi Govt Dental College, Jammu during the period from 16.07.2008 to 16.02.2009, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 04.07.2009 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

DS-12269M Parminder Kaur, 04 Jan 2008

[with seniority for pay and promotion from 04.07.2007 includes 06 months ante date for paid job of a Lecturer in Guru Nanak Dev Dental College & Research Institute, Sunam during the period from 10.01.2007 to 30.11.2007, which will not count for gratuity]

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India dated 28.06.2008 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

D K TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

ARMY BRANCH

No. 337, dated 1st June 2010—The President is pleased to make the following appointments under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

To be Lt (On Prob)

Aman Awasthi (MR-08930W), AMC, 09 Sep 2009

Mohit Mittal (MR-08865F), AMC, 05 Mar 2009

Abhishek Mallick (MR-08871P), AMC, 05 Mar 2009

Parminder Singh Rooprai (MR-08872X), AMC, 05 Mar 2009

Dinesh Bhardwaj (MR-08876N), AMC, 05 Mar 2009

YASH PANDE
Brig
Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 338, dated 1st Jun 2010—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 12 Dec 2009)

The undermentioned Gentlemen Cadets of 10+2 TES 14 Course are granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 12 Dec 2009 under the provision of AI 3/99.

IC No., Name & Arm/Service	
IC-72078F, Rakesh Singh, Engrs	IC-72108N, Nirbhay, Sigs
IC-72079K, Saurabh Dixit, Inf	IC-72109W, Piyush Singh Rathore, EME
IC-72080Y, Ashish Jha, AAD	IC-72110L, Shanmugavadivel S, Engrs
IC-72081F, Jai Singh Rana, Arty	IC-72111N, Shashank Chand Mall, Mech
IC-72082K, Prabal Tondon, EME	IC-72112W, Sahil Dutt, Engrs
IC-72083M, Avinash Shivaji Gavas, Engrs	IC-72113Y, Nakul Sharma, Sigs
IC-72084P, Aman Deep Sharma, Sigs	IC-72114F, Ankit Gupta, EME
IC-72085X, Akhil Choubey, Inf	IC-72115K, Priyanshu Shukla, EME
IC-72086A, Harjap Singh, Sigs	IC-72116M, Deepak Bhagat, Engrs
IC-72087H, Hardeep Singh Dhloria, Engrs	IC-72117P, Manikandan M, Engrs
IC-72088L, Ojas Mishra, Engrs	IC-72118X, Abhilash Anand, Sigs
IC-72089N, Sudeep K, AVN	IC-72119A, C Sharat Kurup, Engrs
IC-72090H, Vishal Sharma, Sigs	IC-72120P, Gaikwad Tushar Dhananjay, Sigs
IC-72091L, Arun Kumar Yadav, EME	IC-72122A, Rajat Pratap, Arty
IC-72092N, Renjith K R, Sigs	IC-72123H, Sachin Khurana, Sigs
IC-72093W, Anand S, Engrs	IC-72124L, Tanuj Kakkar, Sigs
IC-72094Y, Ishpal Broca, EME	IC-72125N, Aman Deep Singh, Inf
IC-72095F, Vikas Singh, EME	IC-72126W, Subrat Kumar Lenka, Engrs
IC-72096K, Shiraj Kapoor, Engrs	IC-72127Y, Rahul Singh, Int
IC-72097M, Saurabh Soodan, Inf	IC-72128F, Anish Kumar, EME
IC-72098P, Satish Maruti Redekar, EME	IC-72129K, Praveen Kumar Sharma, Sigs
IC-72099X, Vishal Kumar Singh, ASC	IC-72130Y, Naveen N, Engrs
IC-72100F, Achint Singh, Sigs	IC-72131F, Sharath Nair, EME
IC-72101K, Vaibhav Jindal, Engrs	IC-72132K, Laishram Chitaranjan Singh, Engrs
IC-72102M, Piyush Bansal, Armd	IC-72133M, Shubhendu Tripathi, Sigs
IC-72103P, Chinche Sagar Arun, EME	IC-72134P, Nitin Kumar, Arty
IC-72104X, Akash Budhrani, Sigs	IC-72135X, Atul Pandey, Inf
IC-72105A, Vineed T P, Engrs	IC-72136A, Vikas Malik, EME
IC-72106H, Sajjan Kumar Singh, Inf	IC-72137H, Yashasvi Srivastava, Engrs
IC-72107L, Vikash Singh, EME	IC-72138L, Vipin Prasad, Engrs
	IC-72139N, Aditya Chand, EME
	IC-72140H, Shinde Yogesh Deepak, Engrs
	IC-72141L, Harsh Kumar, AOC
	IC-72142N, Saurabh Gupta, Sigs
	IC-72143W, Dabke Pranav Suhas, Engrs
	IC-72144Y, Aladurthi Nanda Kishore, EME
	IC-72145F, Rohit Dobhal, Inf
	IC-72146K, Deepak Vijh, Sigs
	IC-72147M, Razeen Rasheed, EME

IC-72148P, Sangaru Shravan, Sigs

IC-72149X, Srinath Mani Tripathi, Engrs

IC-72150M, Vipul Thakur, ASC

NILESH CHOWDHARY

Lt Col

AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 339, dated 2nd Jun 2010—The President is pleased to make the following appointments:—

REGULAR ARMY SPECIAL COMMISSION

The following 18 GCs are granted Special Commission in the Arm/Service as shown against their name in the rank of Lt Under Al 5/97 with effect from 12 Dec 2009 as per inter-seniority given in the final letter of even number dated 18 Dec 2009 :—

IMA No., Army No., Parent Arm/Service, Name, SCO No. & Arm Service allotted

S/701, 4000955M, Inf, Anil Dutt Joshi, SC-00595H, AOC

S/704, 6394063H, ASC, Pritam Singh, SC-00596L, ASC

S/707, 13764567K, Inf, Raman Kumar, SC-00597N, Inf

S/689, 14703015W, Inf, Dinesh Singh Thapa, SC-00598W, Inf

S/685, 15124426F, Arty, Anil Kumar, SC-00599Y, Sigs

S/693, 5454565F, Inf, Ramkaji Gurung, SC-00600H, Inf

S.712, 15468432N, AC, Rohtash Singh, SC-00601L, AC

S/702, 14622869W, EME, Bhagyara, SC-00602N, EME

S/709, 9512974F, AEC, Pravin Kumar Vanjare, SC-00603W, EME

S/692, 5453679A, Inf, Vijay Gurung, SC-00604Y, Inf

S/705, 6395378Y, ASC, Sanjay Singh, SC-00605F, Inf

S/688, 1488768Y, Engrs, Laxman Singh Bisht, SC-00606K, Engrs

S/708, 1581808F, AAD, Manoj Kumar Gupta, SC-00607M, Arty

S/713, 6942173A, AOC, Anil Mane, SC-00608P, Engrs

S/710, 15776318K, AAD, Rethesh GV, SC-00609X, AAD

S/694, 15478771F, AC, Vinu P, SC-00610M, Arty

S/697, 15470972L, AC, Vimal Raj S, SC-00611P, Arty

S/679, 14924189N, ASC, Ajay Chauhan, SC-00612X, Mech Inf

RAHUL SHARMA

Lt. Col

AMS-8B

NAVY BRANCH

No. 340, dated 2nd June 2010—The President is pleased to Make the following appointment in the Executive Branch (Logistics Cadre), Engineering Branch (General Service Cadre), and Electrical Branch (General Service Cadre), of the Indian Navy for Direct Entry Scheme/University Entry Scheme under the Ministry of Defence Letter No. MF/1506/DES/Vol-I/03/dated 21 Jan 2008 & MF/1822/DES/Vol-IV/03/dated 23 Aug 2007 from the date shown against the Name :—

To be Lt (on Prob)

Name of the Officers, P. No., Type of Commission & Date of Commission

EXECUTIVE BRANCH (LOGISTICS CADRE)—Aug 2005

Ashutosh Chaturvedi (05776A), SSC, 19 Aug 2005

UNIVERSITY ENTRY SCHEME

ENGINEERING BRANCH (GENERAL SERVICE CADRE)—Aug 2005

Ramniwas Babal (42636Z), SSC, 07 Aug 2005

Subrat Mahapatra (42637A), SSC, 07 Aug 2005

Abhishek Chakrabarty (42638B), SSC, 07 Aug 2005

Harish Shekhar (42639F), SSC, 08 Aug 2005

C Vishnu Prasad (42640H), SSC, 08 Aug 2005

Jalaj Bhatia (42641K), SSC, 08 Aug 2005

Jasmeet Singh (42642N), SSC, 08 Aug 2005

Katta Nagoor Goutham (42643R), SSC, 08 Aug 2005

Amarjeet Singh (42645W), SSC, 10 Aug 2005

Pradeep Mishra (42647Z), SSC, 10 Aug 2005

Vijay Sharma (42648A), SSC, 10 Aug 2005

Somnath Prakash Salunkhe (42649B), SSC, 10 Aug 2005

Abhijit Vikas Baraskar (42650F), SSC, 15 Aug 2005

Karunkaran Shyam (42651H), SSC, 15 Aug 2005

ELECTRICAL BRANCH (GENERAL SERVICE CADRE)—Aug 2005

Asshish Mohan (52163A), SSC, 07 Aug 2005

Ravisankar Harikarakrishna (52164B), SSC, 07 Aug 2005

Ashutosh Sharma (52165F), SSC, 08 Aug 2005

Hemant Kr. Singh Chauhan (52166H), SSC, 08 Aug 2005

Amit Turan (52167K), SSC, 10 Aug 2005

Sandeep Kulkarni (52168N), SSC, 10 Aug 2005

Manish Shrivastava (52169R), SSC, 10 Aug 2005

Rajesh Kumar Agnihotri (52170T), SSC, 10 Aug 2005

Shaikh Mohd. Muneeb Aatif (52171W), SSC, 10 Aug 2005

M Ravikiran (52186B), SSC, 10 Aug 2005
 Brij Bhushan Singh (52172Y), SSC, 10 Aug 2005
 R Manjunath (52174A), SSC, 15 Aug 2005
 Manoj Bhai Patel (52175B), SSC, 15 Aug 2005

R. RAJAGOPALAN
 Commander
 JDMPR (OII & R)

ARMY BRANCH

No. 341, dated 2 Jun 2010—The President is pleased to make the following commission:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Lt

Shankar Nagappa Karajagi (TA-42714) (ASC TA),
 30 Jun 08 (FN)

JAI RAJ
 Under Secy.

REGULAR ARMY

MILITARY NURSING SERVICES

(PERMANENT COMMISSION)

No. 342, dated 2 Jun 2010—The President is pleased to grant Permanent Commission to undermentioned Nursing Officer (s) in Military Nursing Services (Regular) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 3/98 with effect from 21 Aug 2006 [Seniority from 21 Aug 2005 for promotion and pay fixation being BSc (Nursing)] :—

To be Lt (on Probation)

Rank & Name, Pers Number, Date of Birth

Lt Arshi Sultana, NR-21634K, 27 Jul 1982

Lt Renuka Dalal, NR-21635M, 04 Apr 1982

SHORT SERVICE COMMISSION

The President is pleased to grant Short Service Commission to undermentioned Nursing Officer(s) in Military Nursing Services (SSC) under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 29537/DGAFMS/MNS/2586/D (Med) dated 17 Jun 88 as amended from time to time read with AI 17/96 with effect from 05 Jan 2009.

To be Lt (on Probation)

Rank & Name, Pers Number, Date of Birth

Lt Ramya R, NS-21830K, 19 Jan 1986

Lt Nithya S, NS-21831M, 10 Dec 1984

Lt Gagandeep Kaur, NS-21832P, 26 Dec 1986

Lt Neha, NS-21833X, 04 Nov 1986

Lt G Devi, NS-21834A, 09 May 1987

Lt Rani Kalpana R, NS-21835H, 03 Jul 1986

Lt Snehlata, NS-21836L, 10 Jan 1986

Lt Ponmani A, NS-21837N, 05 Jul 1986

Lt Kolhe Vanita Sahebrao, NS-21838W, 17 Jun 1986

Lt Venuthai, NS-21839Y, 02 Jun 1986

Lt Sarabhjit Kaur Mann, NS-21840N, 14 Oct 1984

Lt Lugailu Daimei, NS-21841W, 15 Mar 1984

Lt Astha Lakshmi R, NS-21842Y, 26 Dec 1985

Lt Amrita Sahu, NS-21843F, 12 Apr 1985

Lt Rajlaxmi, NS-21844K, 31 Oct 1986

Lt C Valarmathi, NS-21845M, 09 May 1985

Lt Ranjini K, NS-21846P, 13 May 1982

Lt MS Maithili, NS-21847X, 31 May 1984

Lt Deepika Chandok, NS-21848A, 07 Jan 1985

Lt Mary Vungthianmol, NS-21849H, 30 Aug 1984

Lt GR Janaki, NS-21851A, 21 Apr 1984

Lt MD Zaharabee, NS-21852H, 01 Jun 1985

Lt Rinu Mathew, NS-21853L, 26 Aug 1984

Lt Nimreichon Duidong, NS-21854N, 25 Feb 1984

Lt Vani S, NS-21855W, 29 Nov 1985

Lt Deepa P, NS-21856Y, 10 Sep 1982

Lt P Shanthanalakshmi, NS-21857F, 19-Jul 1984

Lt V Elamathi, NS-21858K, 15 May 1980

Lt D Chitra, NS-21859M, 09 Dec 1978

Lt Khwairapam Memthoi Devi, NS-21860F, 10 Mar 1982

Lt Sujisha OP, NS-21861K, 15 Mar 1985

Lt S Arokiamari, NS-21862M, 25 May 1978

Lt T Jayandhi, NS-21863P, 25 May 1984

Lt S Santhi, NS-21864X, 28 May 1985

Lt Vijayalakshmi, NS-21865A, 10 Jul 1986

Lt Lodha Khushali Suman Singh, NS-21866H, 17 Nov 1985

Lt Vanajaxi B Bhavikatti, NS-21867L, 03 Jun 1985

Lt S Packia Lakshmi, NS-21868N, 06 Jun 1982

T PADMINI
 Maj Gen
 Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 343, dated 3rd June 2010—The President is pleased to re-employ the undermentioned JCOs on the advice list in the rank and date specified :—

REGULAR ARMY

DEFENCE SECURITY CORPS

In the rank of Subedar Major (GD)

Sub Maj Guralp Singh (JC-428182H) Formerly Punjab Regt, 12 Apr 2009

Sub Maj Ram Nivas Singh Tomar (JC-237345H) Formerly Armed Corps, 27 Apr 2009

In the rank of Subedar (GD)

Sub Govind Singh (JC-412486W) Formerly Para Regt, 22 Dec 2008

Sub Dhrubajyoti Sinha (JC-548753M) Formerly Assam Regt, 22 Dec 2008

Sub Subrata Kumar Basu (JC-691104K) Formerly AMC, 25 Apr 2009

Sub Bhagwati Prasad (JC-568869K) Formerly Mahar Regt, 25 Apr 2009

Sub Lila Ram (JC-448856W) Formerly Gren Regt, 25 Apr 2009

Sub Darshan Singh (JC-508143X) Formerly Sikh Li Regt, 27 Apr 2009

Sub Padam Bahadur Gurung (JC-612422P) Formerly 4 GR, 07 May 2009

In the rank of Naib Subedar (GD)

Nb Sub Sukh Ram (JC-255435M) Formerly Arty Regt, 22 Dec 2008

Nb Sub Brham Dass (JC-568923M) Formerly Mahar Regt, 25 Apr 2009

Nb Sub Bijendra Singh Thapa (JC-602369F) Formerly 1 Gr, 25 Apr 2009

Nb Sub Samittar Singh (JC-348527L) Formerly Beg (K), 25 Apr 2009

Nb Sub Bhadur Singh (JC-519258L) Formerly Dogra Regt, 25 Apr 2009

PRADEEP KUMAR
Under Secy
D(MoU)

MILITARY SECRETAR'S BRANCH

No. 344, dated 3rd June 2010—The President is pleased to make Substantive Promotion of Lt General to the following officers :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Lt General

IC No, Rank, Name, Arm & Date of subs rank

IC-25815 Maj Gen Gurdeep Singh, VSM, Arty, 01 Jun 2009

IC-25839 Maj Gen Baljit Singh, Arty, 01 Jun 2009

IC-27352 Maj Gen MS Buttar, VSM, Arty (GC), 01 Jun 2009

IC-27606 Maj Gen AK Singh, AVSM, SM, VSM, 7 CAV, 02 Jul 2009

IC-27616 Maj Gen K Surendra Nath, VSM, Mech Inf, 31 Jul 2009

IC-27645 Maj Gen Rameshwar Roy, AVSM, YSM, JAK RIF, 01 Aug 2009

IC-27679 Maj Gen NC Marwah, AVSM, Kumaon, 01 Sep 2009

IC-30516 Maj Gen Kuldip Singh, AAD, 18 Sep 2009

IC-25408 Maj Gen MC Bhadhani, VSM, Engrs, 28 Sep 2009

IC-27701 Maj Gen DS Sindhu, VSM, 17 Horse, 26 Oct 2009

N K PHUKAN
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 345, dated 3rd June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

DP Vats (MR-03831K), 01 Jan 2010

YASH PANDE
Brig
Dy DGAFMS (HR)

MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 346, dated 3rd June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be substantive Brigadier

IC No, Rank, Name, Arm & D.O. Subs Brig

IC-39838 Col PN Lakhe, EME, 27 Aug 2008 with seniority from 01 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-37555 Col VG Khandare, SM, Garh Rif, 03 Sep 2008 with seniority from 03 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38645 Col Ajay Sah, SM, VSM, Garh Rif, 25 Oct 2008 with seniority from 06 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38669 Col G Sankar, MLI, 01 Sep 2008 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38679 Col Abhay Krishna, SM, VSM, Raj Rif, 01 Sep 2008 with seniority from 08 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38680 Col Sanjay Agarwal, Engrs, 01 Mar 2008 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38686 Col Vinod Kumar, AAD, 01 Jul 2008 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38691 Col JS Bedi, Arty, 01 Mar 2008 with seniority from 09 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38694 Col Paramjit Singh, EME, 05 Feb 2009 with seniority from 10 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38704 Col AK Singh, Punjab, 01 Sep 2008 with seniority from 10 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38705 Col KB Chand, Dogra, 01 Sep 2008 with seniority from 10 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38708 Col Ashok Ambre, MLI, 01 Sep 2008 with seniority from 10 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38711 Col Vinod Kumar, VSM, Mech Inf, 01 Sep 2008 with seniority from 11 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38714 Col RS Malave, Armd, 01 Sep 2008 with seniority from 11 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38720 Col AS Chowdhry, Arty, 04 Mar 2008 with seniority from 11 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38722 Col C Mathson, SM, Garh Rif, 02 May 2008 with seniority from 12 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38723 Col A Khanna, Arty, 01 Jul 2008 with seniority from 12 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38732 Col AG Kundalkar, SM, 4 GR, 01 Sep 2008 with seniority from 12 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38739 Col RK Rajput, Arty, 01 Apr 2008 with seniority from 13 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38744 Col S Pratap, 8 GR, 01 Sep 2008 with seniority from 13 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38749 Col S M Murari, VSM, AAD, 13 Jan 2008

IC-38761 Col S Mangain, SM, Int, 01 Apr 2008 with seniority from 14 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38767 Col PS Nair, Arty, 01 Jul 2008 with seniority from 15 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38782 Col Sarbjeet Singh, Sigs, 01 Jul 2008 with seniority from 15 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38792 Col Pankaj Malhotra, VSM, EME, 09 Dec 2008 with seniority from 16 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-38812 Col PK Singh, SM, VSM, Rajput, 01 Oct 2008 with seniority from 16 Jan 2008 without effect on pay and pension.

IC-41055 Col KS Chauhan, Sigs, 01 Feb 2009 with seniority from 31 Jan 2008 without effect on pay and pension.

N K PHUKAN
Dir/MS(X)

ARMY BRANCH

No. 347, dated 4th June 2010—The President is pleased to make the promotion of undermentioned AMC officers with effect from the date as indicated against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Col (Time Scale)

(NTR-16546K) Lt Col Dharam Pal Ola, 21 Jan 2010

YASH PANDE

Brig

Dy DG AFMS (HR)

ARMY BRANCH

No. 348, dated 4th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to Sub Col (by Selection)

Pers No., Name, Arm & Subs Date

IC-38088 A Narasimhan, Aad, 01 Jan 2008

IC-40730 AK Mukherjee, Sigs, 01 Jan 2008

IC-44596 Patanjali Puri, Engrs, 01 Jan 2008

IC-44543 AS Ghumman, Arty, 01 Jan 2008

IC-47011 Vinayak Saini, Engrs, 01 Jan 2008

IC-47025 Sandeep Sehgal, Inf, 01 Jan 2008

IC-47407 BS Jakhar, Inf, 01 Jan 2008

IC-47432 V Gupta, Inf, 01 Jan 2008

IC-47528 Ravi Kumar, Aec, 06 Aug 2008 but seniority wef 01 Jan 2008 without effect on pay & pension

IC-47371 Balbir Singh, Inf, 01 Jan 2008

IC-47493 RK Vemuru, Aec, 12 Aug 2008 but seniority
wef 01 Jan 2008 without effect on pay & pension

IC-47125 AP Mulimani, Aad, 01 Jan 2008

IC-47087 RK Sharma, Aad, 01 Jan 2008

IC-49349 Vineet Gaur, EME, 01 Jan 2008

TK DAS
Dy Dir
MS-8A

No. 349, dated 4th June 2010—The President is pleased
to make the following promotion in respect of MNS officers
with effect from the date(s) mentioned against the each
names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col (TS) to Lt Col (Select)

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Lt Col Baby NV (NR-17671A), 01 Dec 2009

Lt Col SK Rawat (NR-16294H), 25 Aug 2003

Lt Col S Chakraborty (NR-16341P), 11 Oct 2003

Lt Col Poonam Banik (NR-16449M), 06 Oct 2003

Lt Col VS Baby (NR-16711K), 19 Dec 2005

Lt Col Annamma E Thomas (NR-16851W), 30 Jan 2006

Lt Col KM Omana (NR-16882W), 09 Dec 2005

Lt Col K Chakraborty (NR-16919M), 03 Jul 2006

Lt Col Mary Mable (NR-16931N), 03 Jul 2006

Lt Col Lakshmi Mathy (NR-16958L), 11 Sep 2006

T PADMINI
Maj Gen
Addl DGMNS

No. 350, dated 4th June 2010—The President is pleased
to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name, Arms/Services & Sub Lt Col wef

IC-46812 Harsh V Chhibber, Inf, 26 Oct 2009

IC-54166 Gaurav Mahajan, ASC, 26 Oct 2009

IC-54736 Yajuvendra Singh, ASC, 26 Oct 2009

IC-55396 Anil Yadav, EME, 26 Oct 2009

IC-57724 R Sathya Narayana Satish, Sigs, 26 Oct 2009

SL-04364 K Dhayanidhi Engrs, 26 Oct 2009

SL-04199 Jagwant Singh, EME, 26 Oct 2009

IC-41076 Harish Kumar Gulati, Aoc, 16 Dec 2004

IC-53058 Manish Chauhan, Inf, 11 Jun 2007

IC-54026 H Parveen, Inf, 09 Dec 2008

IC-54074 Madhup Verma, Aoc, 09 Dec 2008

IC-54298 Rohit Gupta, Engrs, 08 Jun 2009

IC-54522 Shirshendv Mukherjee, Inf, 08 Dec 2009

IC-55588 JL Srinivasan, Engrs, 09 Nov 2009

IC-55607 Kumar RR Singh, Inf, 09 Nov 2009

SL-04311 Ashok Kumar, Engrs, 27 Apr 2009

SL-04325 Lakshmi Narayanan MV, EME, 27 Apr 2009

IC No. Name & Arms

IC-56601 Milan Vinayak Nalawad E, Inf

IC-56608 Manesh Nagpal, Inf

IC-56628 Malvinder Singh Randhawa, Sigs

IC-56629 Vivek Kumar Gupta, Inf

IC-56633 Shashi Bhushan Ghildiyal, Arty

IC-56634 Anurag Sharma, EME

IC-56636 Rahul Macchral, Arty

IC-56637 Vishal Nayyar, Engrs

IC-56643 Param Jit Singh Bajwa, ASC

IC-56644 Gurpartao Singh, EME

IC-56652 Sandeep Kapoor, Inf

IC-56658 Vikaram Anant Dhodapkar, EME

IC-56667 Arun Bhandari, Sigs

IC-56669 Dipendra Singh, Inf

IC-56699 Amit Tewatia, Inf

IC-56701 Vadvinder Singh Parmar, Inf

IC-56719 Swaminthan P, Inf

IC-56729 Ashutosh Datt Sharma, Sigs

IC-56735 Shailesh Kopkar, Inf

IC-56779 Charanjeet Singh Bhalla, EME

IC-56809 Kulkarni Ashutosh Chandrakant, Sigs

IC-56810 Anurag Rawat, Engrs

IC-56820 Sudip Kumar, Inf

IC-56839 Anil Kumar KV, Sigs

IC-56846 Ranjan Mahajan, Inf

IC-56864 Anil Kumar Choudhary, Inf

IC-56872 Rahul Sharma, AC

—07 Dec 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 351, dated 7th June 2010—The President is pleased to make the following promotions under AI 15/79 as amended :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Maj

DR-10611H Manish Mittal, 30 May 2009

DR-10579Y Yuvraj Issar, 19 May 2009

DR-10609L Amit Jain, 23 Apr 2009

DR-10608H Nitin Gupta, 15 Apr 2009

DR-10612L Navin Kaul, 23 Jun 2009

SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Sub Maj

DS-12138F Veeranjali Sawant, 24 Jun 2009

DS-12135N Gaurav Garg, 09 Jun 2009

DS-12165L Indranil Mukhopadhyaya, 07 Jun 2009

DS-12136W Bhanu Sharma, 11 Jun 2009

DK TANEJA
Maj Gen
Addl DGDS

No. 352, dated 7th June 2010—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date mentioned against the name :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to Maj

Rank & Name, Pers No. & Date of Promotion

Maj Vandana (NR-19976Y), 28 Mar 2003

T PADMINI
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 353, dated 7th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

Capt to be Maj

SL No., Name, Arm

SL-04951 Sridhar V, SL/APTC

—14 Jun 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

No. 354, dated 7th June 2010—The President is pleased to make the following promotions from the dates mentioned below against the name of the officers. Relative seniority in the rank will be as indicated against officers's name below :—

NATIONAL CADET CORPS

NCC WHOLE TIME LADY OFFICERS

(PERMANENT COMMISSIONED)

Lt to Capt

No., Rank and Name of the Offr & Date of Promotion

NCC/GD/PC-12506 Lt Farah Deebea, 05 Jul 2008

NCC/GD/PC-12507 Lt Palaboina Surekha Rao, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12508 Lt Savita Chillar, 02 Jul 2008

NCC/GD/PC-12509 Lt Deepti, 29 Jun 2008

NCC/GD/PC-12511 Lt Deepa Chandrasekaran, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12513 Lt Rajitha Divakaran, 01 Jul 2008

NCC/GD/PC-12515 Lt Mahuwa Bhattacharjee, 04 Jul 2008

NCC/GD/PC-12516 Lt Parvin Mansurali Budhvani, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12518 Lt Kavita Dahyabhai Italian, 27 Jun 2008

NCC/GD/PC-12519 Lt Meenakshi, 02 Jul 2008

NCC/GD/PC-12520 Lt Reena Goswami, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12521 Lt Langam Ranjana Devi, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12522 Lt Manju R, 08 Jul 2008

NCC/GD/PC-12525 Lt Gandham Sripriya, 08 Jul 2008

S J DAVID
Col
Dir (MS)

No. 355, dated 8th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt to be Capt

IC No., Name, Arm & Date of Subs Capt

IC-65286 Rajesh Kumar, Inf, 16 Dec 2004

IC-65431 GC Chakradhar, Arty, 16 Dec 2004

IC-65472 Harvinder Singh, Inf, 01 May 2005

IC-65476 Abhishem Misra, Inf, 01 May 2005

IC-65478 Praveen Kumar Dubey, Inf, 01 May 2005

IC-65484 Dharmendra Singh, Inf, 01 May 2007

IC-65485 Avneet Singh Mehta, Mech Inf, 01 May 2005

IC-66042 Jiju Varghese, EME, 16 Dec 2004

IC-69603 Sanjay Singh Jeena, Engrs

IC-69604 Yogesh Chauhan, AC

IC-69605 Jaddu Vamsidhar Naidu, Sigs

IC-69606 Vinay Prakash Singh, AC

IC-69607 Ashish Kumar Ojha, Inf

IC-69608 Patil Ravi Dhruva, EME

IC-69609 Puneet Khanna, Engrs

IC-69610 Chetan N Balulad, Arty

IC-69612 Gautam Lamba, Arty

IC-69613 Gyan Ranjan Sahu, AOC

IC-69614 Pankaj Pathak, Engrs

IC-69615 Avinash Swain, Inf

IC-69616 Jaswinder Singh, Inf

IC-69617 Salunke Saurabh Rajanikant, Mech

IC-69618 Wangyal Tashi Sherpa, AAD

IC-69619 Gurpartap Singh, Arty

IC-69620 Swapnil Natthuji Raut, Arty

IC-69621 Mahipal Singh Bhati, Inf

IC-69622 Kshitiz Arya, Inf

IC-69623 Trivedi Snehal Arunkumar, ASC

IC-69624 Sandeep Upreti, Arty

IC-69625 Saurabh Thakur, Arty

IC-69626 Pradeep Singh Adhikari, Inf

IC-69627 Jagdhane Piyush Pralhad, AC

IC-69628 Divesh Kumar, Inf

IC-69629 Karan Sharma, Engrs

IC-69630 Bikiran Kumar Dash, Inf

IC-69631 Arun Kumar, EME

IC-69632 Ghanender Pratap Singh, Inf

IC-69633 Sharad Vashista, EME

IC-69634 Siddanna B Munnolli, Inf

IC-69635 Praveen Kumar Singh, Inf

IC-69636 Mayank Saxena, AAD

IC-69637 Apurba Ranjan Singha, Arty

IC-69638 Sudhir Singh Kalakoti, Inf

IC-69639 Rishabh Nigam, Mech

IC-69640 Rahul Singh, Engrs

IC-69641 Abhishek Saxena, Engrs

IC-69642 Channabasavesh K Gunde, Inf

IC-69643 Heera Singh, Inf

IC-69644 Gurmukh Singh, Inf

IC-69645 Satyendra Singh, Engrs

IC-69646 Saurabh Sharma, EME

IC-69647 Keerthi Balaram Javvathi, Engrs

IC-69648 Jagannath B Desai, Engrs

IC-69649 Krishnachandran P, Arty

IC-69650 Swaroop Singh Chauhan, Inf

IC-69651 Tharun Edward, Arty

IC-69652 Shishir Pandey, Inf

IC-69653 Ajay Singh Bhadouria, Inf

IC-69654 Kalpesh Gorakh Kalal, Arty

IC-69655 Biswajit Mitra, AOC

IC-69656 Swapnil Chandrashekhar Kulkarni, Inf

IC-69657 Avinish Kumar, AC

IC-69658 Karthickraj P, ASC

IC-69659 Sandeep Singh, Sigs

IC-69660 Whitler Meitei, AOC

IC-69661 Jyoti Prakash Mishra, Sigs

IC-69662 Nepram Somokanta Singh, Inf

IC-69663 Swagat Kumar Das, Inf

IC-69664 Kumar Sugandh, AOC

IC-69665 Sujit Kumar, Arty

IC-69666 Sunil Dahiya, Inf

IC-69667 Gaurav Thapa, Inf	IC-69706 S Navneeth Ganesh, Inf
IC-69668 Arjun Gulati, Engrs	IC-69707 Deepjyoti Saikia, Inf
IC-69669 Chirag Baweja, Inf	IC-69708 Arjun Ramath, Engrs
IC-69670 Rahul Singh, Inf	IC-69709 Dheeraj Parashar, Inf
IC-69671 Ritesh Kumar Singh, Arty	IC-69710 Vinu T M, Arty
IC-69672 Ajay Kumar Gill, EME	IC-69711 Navneet Jang Thapa, Inf
IC-69673 Alok Badoni, Inf	IC-69712 Rahul Singh, EME
IC-69674 Chetan Kaushik, Arty	IC-69713 Shikhar Agarwal, Mech
IC-69675 Tapan Sangwan, Engrs	IC-69714 Yashpal, Inf
IC-69676 Sumesh Kumar P, Inf	IC-69715 Sanjeev Kumar, Engrs
IC-69677 Aravind P J, EME	IC-69716 Kamaljeet Singh, Inf
IC-69678 Vikram Sharma, Mech	IC-69717 Saurabh Pandey, Arty
IC-69679 Puneet Dutta, Engrs	IC-69718 Kumud Kumar Yadav, EME
IC-69680 Ashish Dhankar, Inf	IC-69719 Neeraj Sharma, Sigs
IC-69681 Savit Vikram, Engrs	IC-69720 Mohit Hooda, AOC
IC-69682 Vijendra Singh, Inf	IC-69721 Ashwani Singh, AOC
IC-69683 Kshitij Prakash Gupta, AAD	IC-69722 S Durga Prasad dora, Engrs
IC-69684 Rishabh Tiwari, Arty	IC-69723 Shree Prasad Thapa, Arty
IC-69685 Banti Mahouria, Inf	IC-69724 Kiran S Rahul, Inf
IC-69686 Hemant Kumar Deolal, Inf	IC-69725 Apoorv Goel, Int
IC-69687 Balram Rana, Inf	IC-69726 Alok Shankar, Engrs
IC-69688 Ganesh Singh Pokhariya, Inf	IC-69727 Ujjawal Patial, AC
IC-69689 Prabhat Mishra, Arty	IC-69728 Gopal Mishra, AOC
IC-69690 Dhiraj Kumar Singh, EME	IC-69729 Parit Pratap Singh, Mech
IC-69691 V Vinay Bhanu Reddy, Arty	IC-69730 Himanshu Gupta, AAD
IC-69692 Jaswinder Singh, Inf	IC-69731 Kapil Tripathi, Inf
IC-69693 Abhishek Mishra, Arty	IC-69732 N Thandavan, Arty
IC-69694 Sumant Mahajan, Arty	IC-69733 G Kalicharan, Inf
IC-69695 Padmanabhan Swamy, Inf	IC-69734 Prateek Shukla, Arty
IC-69696 Mukul Sharma, AAD	IC-69735 Prasoon Singh, Inf
IC-69697 Arun Singh, Sigs	IC-69736 Sumiran Vyas, Inf
IC-69698 Madhialagan G, EME	IC-69737 Daljit Singh, Inf
IC-69699 Sambhav Sagar, Inf	IC-69738 Lalit Kumar Singh, EME
IC-69700 Garun Anand, Inf	IC-69739 G Naresh Reddy, Arty
IC-69701 Amit Singh, AOC	IC-69740 Jayaprakash Singh, Inf
IC-69702 Ravishekhar R Kottur, Arty	IC-69741 Abhinav Verma, Sigs
IC-69703 Parwat Dan, Inf	IC-69742 Maneesh, Arty
IC-69704 Alex Sebastian, Arty	IC-69743 Dalip Gurung, AOC
IC-69705 Ranjan Kumar, Inf	IC-69744 Sandeep R H, Arty

IC-69745 Anil Kumar Samal, Inf	IC-69784 Arbind Kumar, Inf
IC-69746 Deepak Uniyal, Arty	IC-69785 Anil Kumar S Nair, Arty
IC-69747 Hardeep Singh, Arty	IC-69786 Ezhirtko M, Arty
IC-69748 Varunesh Rao, AAD	IC-69787 Bharat Pal Yadav, AOC
IC-69749 Avijit Chaudhary, Engrs	IC-69788 Kalpataru Das, Arty
IC-69750 Sanjeev Kumar Rattan, Inf	IC-69789 Nirmal Sahi, Inf
IC-69751 Sarvjeet Singh, Inf	IC-69790 Abhishek Kumar, Inf
IC-69752 Ranjan Kumar Singh, Inf	IC-69791 Samrat Gaikwad, EME
IC-69753 Kumar Ankur, Arty	IC-69792 Piyush Tilara, Sigs
IC-69754 Noel Gibert Anthony, AOC	IC-69793 Kedar Markale, AC
IC-69755 Akshay Girish Kumar, Engrs	IC-69794 Maneesh Kumar, Mech
IC-69756 Sanjeev Kumar, AC	IC-69795 Kaustubh Pandurang jadhav, Inf
IC-69757 Ashwani Kumar Pandita, Inf	IC-69796 Amit Rohatgi, Inf
IC-69758 Jay Shankar Sharma, Arty	IC-69797 Praveen Koshy, Engrs
IC-69759 Puran Singh Salaria, EME	IC-69798 Kuldeep Bhadu, Inf
IC-69760 Pulkit Agarwal, Inf	IC-69799 Borkar Daulat Sampatrao, Engrs
IC-69761 Vikee Lamoria, Inf	IC-69800 Santosh Chowdhury, Inf
IC-69762 Vikram Singh Gautam, Arty	IC-69801 Anil Ishwara Karwal, Engrs
IC-69763 Susanta Kumar Jena, Inf	IC-69802 Saphal Pradhan, Arty
IC-69764 Dinesh Kumar , AOC	IC-69803 C Vinay, Inf
IC-69765 Vishal Deshwal, Inf	IC-69804 Ashwarya Joshi, Inf
IC-69766 Tapas Kr Deka, AAD	IC-69805 Abhishek Sharan Pathak, ASC
IC-69767 Neelkandan B, Engrs	IC-69806 Ashish Tiwari, Arty
IC-69768 Smit Mamgain, Engrs	IC-69807 Lenin Johnson, Arty
IC-69769 Rahul Singh, EME	IC-69808 Sandeep Mishra, Inf
IC-69770 Tarush Rana, Mech	IC-69809 Bhaskar Dutta, Arty
IC-69771 Shashank Lavania, Arty	IC-69810 Subash R, Inf
IC-69772 Anshubhan Singh, Inf	IC-69811 P Balu Phanikar, Engrs
IC-69773 Shashidharan V Nair, Inf	IC-69812 Praveen Singh Ranawat, AOC
IC-69774 Varun Sharma, Sigs	IC-69813 Sunil Singh, Inf
IC-69775 Anil Prasad, Inf	IC-69814 Himanshu Dhyani, AOC
IC-69776 Dinesh Fogat, Arty	IC-69815 Ritesh Pratap Singh, Sigs
IC-69777 Praveen Chaudhary, Inf	IC-69816 Yogender Singh, Inf
IC-69778 Sayan S Bandhapadhyay, Inf	IC-69817 Aditya Singh, Sigs
IC-69779 Gaurav Mitra, Engrs	IC-69818 Abheek Purai, Inf
IC-69780 Vijay Chaudhary, Inf	IC-69819 Anshul Jain, EME
IC-69781 Saurabh Joshi, AAD	IC-69820 N Praveen Kumar, Inf
IC-69782 Mohit Tiwari, ASC	IC-69821 Amar Kumar, Arty
IC-69783 Vikas Kumar, Inf	IC-69822 Deependra G Agnihotri, AAD

IC-69823 Shashank Thite, Engrs	IC-69863 Bedh Arvind Lal Chand, Inf
IC-69824 Ankit Yadav, Inf	IC-69864 Tarun Negi, EME
IC-69825 Shafiq Ahmed Khan, Inf	IC-69865 Shreedhar, Arty
IC-69826 Bhaskaranand Mangain, Inf	IC-69866 Ajay Singh Dogra, AOC
IC-69827 P Vishweswar Rao, EME	IC-69867 Sanjeev yadav, Sigs
IC-69828 Vinod Ghadge, Arty	IC-69868 Jagmohan Singh Rawat, Inf
IC-69829 Ankolekar Durgeshnand Sharad, Inf	IC-69869 Devesh Kumar Rai, Arty
IC-69830 Palde Somnatha Punja, Arty	IC-69870 Thite Prasad Anil, Inf
IC-69831 Amarjit Singh Elangbam, Mech	IC-69871 Pratap Singh, AAD
IC-69832 Bljayananda Das, AC	IC-69872 Vivek Bodla, Inf
IC-69833 Abhinandan Dubey, Arty	IC-69873 Amit Kumar Awasthi, Engrs
IC-69834 Amit, Inf	IC-69874 Dhekane Harshavardhan Shahaji, Inf
IC-69835 Kishan Dodwaria, EME	IC-69875 Mohit Berry, Arty
IC-69836 Arun Kumar , Inf	IC-69876 Pumlal L Ngaihte, Mech
IC-69837 Kripakar M, Inf	IC-69877 Prashant Jamwal, AC
IC-69838 Umesh Babu Thapa, Inf	IC-69878 Sandeep Singh Pathania, Inf
IC-69839 Varun Mishra, Mech	IC-69879 Nikesh Kaushik, Engrs
IC-69840 Vijit Kumar, Inf	IC-69880 Varun Gajria, Arty
IC-69841 Shaharyar Haider, Inf	IC-69881 Vishal Gurung, Inf
IC-69842 Saurabh Mall, Inf	IC-69882 Deb prasad Choudhury, Arty
IC-69843 Chandra Kant Sharma, Inf	IC-69883 Hemant Mishra, EME
IC-69844 Vishal Sharma, EME	IC-69884 Manish Singh, EME
IC-69845 Rassay Nitin Ravikant, Arty	IC-69885 Parag Gomber, Inf
IC-69846 Dharendra Kumar Yadav, AOC	IC-69886 Mohd Ashraf Mir, Inf
IC-69847 Sourabh Singh Mayank, Engrs	IC-69887 Vipin, Inf
IC-69848 Goswami Dibyajyoti Dilipkumar, Sigs	IC-69888 Harendra Bisht, Inf
IC-69849 Amit Chaubey, Engrs	IC-69889 Podipireddy Srawan Siddhartha, Int
IC-69850 Umesh Bhatt, Inf	IC-69890 Raj Saurabh, AAD
IC-69851 Heerender Sumra, Engrs	IC-69891 Rajesh Singh, Inf
IC-69852 Gautam Biswas, Int	IC-69892 Sandeep Kumar, Mech
IC-69853 Uday Mohan Aga, Sigs	IC-69893 Vishnu Gopan, AOC
IC-69854 Pritam Biswas, Engrs	IC-69894 Naresh Sharma, Arty
IC-69855 Prasoon Dwivedi, Inf	IC-69895 Apoorva Kumar, Inf
IC-69856 Nitin Gautam, Inf	IC-69896 Kamlesh Kumar Srivastva, Inf
IC-69857 Tanmay Iyer, Engrs	IC-69897 Akshat Chhibbar, Inf
IC-69858 Shabestian Marbaniang, ASC	IC-69898 Girish Chnadra Joshi, Arty
IC-69859 Vikram Singh, ASC	IC-69899 Manoj Rawat, Engrs
IC-69861 Sandeep Chauhan, Inf	IC-69900 Manmeet Singh, EME
IC-69862 Suneel Bartwal, Inf	IC-69901 Pradeep Kumar Singh, EME

IC-69902 M Karthikeyan, Inf	IC-69941 Amit Kumar Mishra, Engrs
IC-69903 Deepak Kumar Tiwari, Inf	IC-69942 Ablakasha Datta, Inf
IC-69904 Jagadish K S, Inf	IC-69943 Manish Kumar Sharma, Inf
IC-69905 Thapa Balbahadur Bhimbahadur, Inf	IC-69944 R Shiva Rama Krishnan, Inf
IC-69906 Shoryaveer Singh Rathaur, Inf	IC-69945 Kalyan Mohan Patnaik, EME
IC-69907 Kirtiman Karki Chhetri, Inf	IC-69946 Bhagwat Nilesh Maruti, Inf
IC-69908 Santosh A K, AC	IC-69947 Kautuk Shrivastav, Arty
IC-69909 Shubham Pandey, AAD	IC-69949 Prince P Kurian, Inf
IC-69910 Bhaskar Pandey, Inf	IC-69850 Arvind Avinash, Arty
IC-69911 Sibabrata Mohanty, Inf	IC-69951 Prateek Saxena, EME
IC-69912 Deepak Kumar, Inf	IC-69952 Akshay Kumar, Arty
IC-69913 Mayur Aloria, Arty	IC-69953 Anshul Rawat, Engrs
IC-69914 Vikram Singh, Inf	IC-69954 Atul Kumar Srivastava, Arty
IC-69915 Vaibhav Srivastava, Engrs	IC-69955 Vimal Kumar, AOC
IC-69916 Hira Singh, AOC	IC-69956 Saurabh Rajput, Inf
IC-69917 Pardeep Dhillon, AC	IC-69957 Ranjan Banerjee, Inf
IC-69918 Vishal Parik, Inf	IC-69958 Amit Kumar Roshan, Inf
IC-69919 Ranadeep Halder, EME	IC-69959 Krishna Chandra Gouda, Arty
IC-69820 Sandeep Thapliyal, Arty	IC-69860 Jagannath Ballav Kausik Mohanty, AAD
IC-69921 Lal Ananth A, Inf	IC-69961 Ashwini Kumar Pradhan, EME
IC-69922 Kapil Dev, Engrs	IC-69962 Jitender Yadav, Arty
IC-69923 Vikrant Sharma, Inf	IC-69963 Ranjeet Singh Bisht, Mech
IC-69924 Rahul Rawat, Inf	IC-69964 Sunil Pundir, Arty
IC-69925 Mayank Bisht, AOC	IC-69965 Vineet Sharma, ASC
IC-69926 Ravikant Pandey, Sigs	IC-69966 Jitender Singh Sangwan, AC
IC-69927 Menon Akash Jayarajan, Arty	IC-69967 Manoj Kumar Pandey, Inf
IC-69928 Raghavendra C, Inf	IC-69968 Saurabh Rana, Sigs
IC-69929 Shantnoo Jharkhandi, AC	IC-69969 Love Kumar Chhetri, EME
IC-69830 Satbir Singh, Arty	IC-69970 Ravi Chandra A, Engrs
IC-69931 Stalin Arockia Rex, Inf	IC-69971 Ashutosh Gupta, Inf
IC-69932 Himmat Singh Bangari, AOC	IC-69972 Lourembam Suraj Kumar Meitei, Inf
IC-69933 Abhitaj Sharma, Arty	IC-69973 Gajdeep Pal, Arty
IC-69934 Deepak Chaudhry, Mech	IC-69974 Prakash Singh Bhandari, Inf
IC-69935 Eashwar R Venkatesh, Engrs	IC-69975 Aditya Vanka, Engrs
IC-69936 Jaspreet Singh, Arty	IC-69976 Ashish Tandon, Inf
IC-69937 Nidhesh Singh, Arty	IC-69977 Arvind Singh, Inf
IC-69938 Surve Girish Yeshvant, Arty	IC-69978 Milan Singh, AOC
IC-69939 Sidharth Shrivastava, Inf	IC-69979 Mohit Kakran, Engrs
IC-69940 Vijay Kumar, AAD	IC-69980 Neeraj Joshi, Inf

IC-69981 Deepak Kumar, ASC	IC-70020 Sanjay Frank, Arty
IC-69982 Ratikanta Parida, Inf	IC-70021 Ashish Singh, Arty
IC-69983 Bijendra Singh Rawat, EME	IC-70022 Virender Singh Kotecha, Inf
IC-69984 Arun Negi, Engrs	IC-70023 Abhimanyu Singh, AC
IC-69985 Parag Sharma, Inf	IC-70024 Jaivardhan Pandey, Engrs
IC-69986 Ghan Bahadur Rana, Engrs	IC-70025 Narinder Singh, Sigs
IC-69987 Abhishek Joshi, Arty	IC-70026 Ashish Singh, EME
IC-69988 Varun Prashar, Inf	IC-70027 Muktesh Suri, AC
IC-69989 Atiquf Uzzaman, AOC	IC-70028 Sojith S, Sigs
IC-69990 Sumit Sharma, Mech	IC-70029 Amit Shanker Jha, Engrs
IC-69991 Deependra Singh Kushwah, Arty	IC-70030 Sanjay Kumar, Mech
IC-69992 Tushar Bachlaus, Arty	IC-70031 Manoj Kumar Dhankher, AOC
IC-69993 Saurabh Gupta, EME	IC-70032 Kamal Bhatt, Inf
IC-69994 Gaurav Ranjan, Sigs	IC-70033 Deepak Pandey, Sigs
IC-69995 Uday Bhanot, Inf	IC-70034 Shashi Shekher, Mech
IC-69996 Gaurav Singh Thakur, AAD	IC-70035 Upendra Kumar, AC
IC-69997 Shubhendu Shekhar, AOC	IC-70036 Girish Gurjal, Arty
IC-69998 Abhimanyu Pathania, Engrs	IC-70037 Sagar Rajendra Sonkamble, Inf
IC-69999 Ajay Kumar, Inf	IC-70038 Arun Yadav, Arty
IC-70000 Ramteke Lalit Devendra, Arty	IC-70039 Patankar Kaustubh Sunil, Inf
IC-70001 Bishal Singh, Inf	IC-70040 Vinod Singh, AC
IC-70002 Ambar Chadha, Inf	IC-70041 Rohan Mahajan, Inf
IC-70003 Iyer Rishikanth Ravindran, Arty	IC-70042 Vikrant Pratap Singh, AAD
IC-70004 Anurag Anand, Engrs	IC-70043 Gangesh Mani Tripathi, EME
IC-70005 Manmohan Mishra, Arty	IC-70044 Saurabh Gurung, Inf
IC-70006 Amit Kumar Dimri, Inf	IC-70045 Diwakar Sharma, ASC
IC-70007 Pratap Singh Rathore, Inf	IC-70046 Mayank Bansal, Arty
IC-70008 Ashutosh Singh, Arty	IC-70047 Gaurav Garg, Engrs
IC-70009 Anoop Das K, Engrs	IC-70048 Anil Kumar Vyas, Arty
IC-70010 Ashish G Kumar, EME	IC-70049 Vikas Malik, EME
IC-70011 Ankur Gautam, Arty	IC-70050 Pankaj Gairola, Inf
IC-70012 Rahul Chauhan, Inf	IC-70051 Satinder Singh, Inf
IC-70013 Manish Thapa, Int	IC-70052 Justine Roshan Lakra, AOC
IC-70014 Mahip Singh, Inf	IC-70053 Vipin Singh Rana, Engrs
IC-70015 MD. Hayat, Arty	IC-70054 Sandeep Sangwan, EME
IC-70016 Soumik Kumar Ganguly, Inf	IC-70055 Kapil Hooda, Arty
IC-70017 Gaurav Sharma, Engrs	IC-70056 Kaustubh Satish Dighade, Inf
IC-70018 Nikhil Raj Jainvi, Engrs	IC-70057 Rohit Mehla, AAD
IC-70019 Kiran Kumar Reddy K, Inf	IC-70058 Bhosale Dhananjay Arjun, Arty

IC-70059 Vaibhav Latiyan , Inf
 IC-70060 Santosh Kumar Yadav, Arty
 IC-70061 Suresh Chandra, AOC
 IC-70062 Abhimanyu R Vaid, Inf
 IC-70063 Saurabh Gupta, Inf
 IC-70064 Varun Mediratta , Sigs
 IC-70065 Manendra Pratap Singh, ASC
 IC-70066 Abhishek Sinha, EME
 IC-70067 Amit mann, Engrs
 IC-70068 Preetham Purushothama, Engrs
 IC-70069 Satyajit Ashokrao Godse, Engrs
 IC-70070 Bhosale Aditya Shivajirao, EME
 IC-70071 Alok Kumar Gupta, AAD
 IC-70072 Vikas Kumar Gupta, Arty
 IC-70073 Rameshwar Singh Jamwal, Arty
 IC-70074 Aditya, Engrs
 IC-70075 Aditya Deb, Inf
 IC-70076 Manvendra, Inf
 IC-70077 Ansingkar Aniket Aniruddha, Sigs
 IC-70078 Saurav Pandey, Inf
 IC-70079 Pereira Charles, Arty
 IC-70080 Aishwarya Bhatnagar, Arty
 IC-70081 Biswajit Mandal, Inf
 IC-70082 Mangsidam Arbit Singh, AC
 IC-70083 Ashutosh Sood, AC
 IC-70084 Rakesh Kumar Siwal, Inf
 IC-70085 Vinamra Gupta, AAD
 IC-70086 Sarath S, Arty
 IC-70087 Abhinav Malik, EME
 IC-70088 Akshay Sehrawat, AC
 IC-70089 Ranjith Kumar VR, Inf
 IC-70090 Ayan Biswas, Inf
 IC-70091 Rahul Chaurasia, Inf
 IC-70092 Bharat Sethi, ASC
 IC-70093 Saurabh Sabhlok, ASC
 IC-70094 Mahim Sharma, AOC
 IC-70095 Karthi Kannan M, Sigs
 IC-70096 Hem Chandra, Inf
 IC-70097 Rapol Karthik, EME

IC-70098 Kakade Nirranjan Ajit, Mech Inf
 IC-70099 Rajat Sangwan, AC
 IC-70100 Gurveen Singh Datta, Arty
 IC-70101 Avilash Mohanty, Inf
 IC-70102 Vivek Ahlawat, Inf
 IC-70103 Manik Panwar, Mech Inf
 IC-70104 Sawant Aniket Sambhaji, Arty
 IC-70105 Gaurav Sindhwani, Mech Inf
 IC-70106 Yogesh Kumar, Inf
 IC-70107 Arshminder Singh, Inf
 IC-70108 Khanzode Rithik Vikas, Arty
 IC-70109 Prateek Banati, AOC
 IC-70110 Pawar Abhijeet Sambhaji, Engrs
 IC-70111 Rahul Samyal, EME
 IC-70112 Agrawal Yash Anoopkumar, Inf
 IC-70113 Mohit Kumar, Engrs
 IC-70114 Ashwani Singh Rana, Inf
 IC-70115 Hasabnis Amey Rajeev, Sigs
 IC-70116 Karthik Veeramani, Arty
 IC-70117 Ashish Singh, Engrs
 IC-70118 Yesu Yadav, AAD
 IC-70119 Manoj Kumar N, Inf
 IC-70120 Atin Chadha, Inf
 IC-70121 Tejas Shashikant Akhade, Sigs
 IC-70122 Anirudh Ahuja, EME
 IC-70123 Rajbir Singh Bist, ASC
 IC-70124 S Suresh, Inf
 IC-70125 Rohit Saxena, Inf
 IC-70126 Karandeep Singh, ASC
 IC-70127 Colaco Edward William, AC
 IC-70128 Prafulla Tyagi, Inf
 IC-70129 V Anoop, Inf
 IC-70130 Saurabh Upadhyay, AC
 IC-70131 Vikas Kumar, Sigs
 IC-70132 Abhishek Solanki, Arty
 IC-70133 Vishal Sharma, AAD
 IC-70134 Mukul Bhardwaj, AC
 IC-70135 Narvekar Rohan Rajan, Engrs
 IC-70136 Abhinav Khare, Arty

IC-70137 Kammili Venkata Harish, Inf
 IC-70138 Rohan Saxena, Arty
 IC-70139 Dennish Anthony, Engrs
 IC-70140 Pratheesh Kumar S, Engrs
 IC-70141 Rakesh P Krishnan, Inf
 IC-70142 Abhimannu Dan, Inf
 IC-70143 Himanshu Tripathi, EME
 IC-70156 Sanjay Patyal, AEC
 IC-70162 Nitin Kumar Singh, AEC

—10 Dec 2009

PERMANENT COMMISSION (SC)

Lt to be Capt

SC No., Name, Arm
 SC-00534 Neeraj Kumar, AOC
 SC-00535 P Kathirvelu, Sigs
 SC-00536 Bikram Singh Rawat, AAD
 SC-00537 Somasundaram P, Engrs
 SC-00538 Hari Babu R, EME
 SC-00539 Praveen Kumar Choudhary, Inf
 SC-00540 Biju R, AC
 SC-00541 Dipak Singh Patwal, Arty
 SC-00542 Ram Singh, EME
 SC-00543 Dilip Singh Nathawat, Inf
 SC-00544 Devendar Kumar Singh, Inf
 SC-00545 Amit Thapa, Arty
 SC-00546 Madhu PC, Inf
 SC-00547 Rishi Manral, Inf
 SC-00548 Pandappa Kotagi, Engrs
 SC-00549 Tarkeshwar Pandey, Arty

—10 Dec 2009

SHORT SERVICE COMMISSION (SSCW)

Lt to be Capt

SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised date of Seniority for Promotion, Date of grant of Subs rank of Capt

SS-43781, Harjot Kaur, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43783, Roop Kunwar Nirban, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43784, Manali Shrivastava, Sigs, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43786, Shrutika Dutta, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43787, Loharekar Girija Laxmikant, Sigs, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43789, Gazelle Satuti Sareen, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43792, Bushra Jaeree, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43793, Parte Pradnya Jayavant, EME, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SS-43794, R Sandhya, Sigs, 22 Sep 07, SSCW-02 (T), 22 Oct 07, 22 Oct 09

SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

Lt to be Cap

SS No, Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion & Date of grant of Subs rank of Capt

SS-42415, Dheeraj Kumar Gupta, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42420, Kshetrimayum Chandra Kumar Singh, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42421, Kabeer Lamba, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42423, Naynesh Sharma, ASC, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42431, Ghanshyam, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42432, Radha Krishan, Arty, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42434, Devendra Lamba, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42436, Jinia Christopher Bosco, AC, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42442, Nair Nijil Balan, Engrs, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42443, Vinayak Kumar Upadhyay, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42455, Chandrapal Singh Chahar, AAD, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42457, Manoj Kumar Ray, Arty, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42463, Swarnim Prabhat, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42466, J Parthasarathy, Engrs, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42468, Asit Chaturvedi, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42477, M Manu Nair, Sigs, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42482, Rahul Mishra, AOC, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42488, Amit Kumar Dwivedi, Arty, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42497, Deepak Kumar Sahu, AAD, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42513, Deshpande Sourabh Ramchandra, Arty, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42518, Pardeep Kumar Kharb, ASC, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42533, Prashant Chand, Mech, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42538, Mohit Sharma, Inf, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42540, Amit Rana, AC, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

SS-42541, Shashank Mudgal, EME, 17 Mar 2007, SSC-83(NT), 17 Oct 2007, 17 Oct 2009

JASWANT SINGH
Jt Dir
MS-8C

ARMY BRANCH

No. 356, dated 8th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY DEFENCE SECURITY CORPS

To be Nb Sub (GD)

Hav Sant Lal (No. 10135107A now JC-842661H), 10 Feb 2010*

Hav Bharat Mishra (No. 6906508F now JC-842663N), 11 Jan 2010*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shinghara Singh (No. 1256008Y now JC-842694N), 12 Feb 2010**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Rajender Singh (No. 4174213W now JC-842705P), 08 Jan 2010***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Khem Bahadur Chhetri (No. 5844342K now JC-842708H), 12 Feb 2010****

Hav Bijendra Singh (No. 10404594H now JC-842710A), 11 Feb 2010****

Hav Rajender Singh (No. 10404392F now JC-842714W), 03 Feb 2010****

Hav Balak Ram (No. 10404307N now JC-842715Y), 17 Feb 2010****

Hav Balwan Singh (No. 10465631F now JC-842718M), 15 Feb 2010****

Hav Bhagya Narayan Singh (No. 4253360A now JC-842721M), 01 Feb 2010****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Gour Chandra Swain (No. 6366645M now JC-842649F), 09 Dec 2009*

Hav Ramesh Chandra Pandey (No. 10181336K now JC-842651Y), 15 Dec 2009*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 26 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Shyam Singh (No. 10181537H now JC-842665Y), 11 Jan 2010**

Hav Bihari Singh (No. 10181483M now JC-842667K), 29 Dec 2009**

** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Indra Lal (No. 10388840W now JC-842677N), 08 Dec 2009***

*** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhchain Singh (No. 14452513N now JC-842685M), 27 Jan 2010****

Hav Netar Pal Singh (No. 10302004L now JC-842686P), 18 Jan 2010****

**** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

Hav Pahap Singh (No. 2472155L now JC-842695W), 01 Jan 2010*****

Hav Ram Autar (No. 2672940L now JC-842703K), 02 Feb 2010*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav Bijoy Kumar Gurung (No. 5747776A now JC-842711H), 01 Feb 2010*****

Hav Ramesh Chand (No. 3976796N now JC-842712L), 01 Feb 2010*****

Hav Surender Bahadur Singh (No. 10404489M now JC-842716F), 04 Feb 2010*****

Hav Girdhari Lal (No. 10465653A now JC-842719P),
01 Feb 2010*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Feb
2010 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Bishnu Pada Barman (No. 13971468N now
JC-842681W), 20 Feb 2010*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec
2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Bashist Bharati (No. 15359807L now JC-
842707A), 01 Feb 2010*****

***** (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

PRADEEP KUMAR
Under Secy.
D(MOU)

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 357, dated 8th June 2010—The President is pleased
to make the following Appointment/Promotion:—

Hav to be Nb Sub Master Tech Small Arms

Kameswar Jenna (No. 14599194M now JC-764313M),
01 Oct 2009

SV Satya Ramesh (No. 14609714H now JC-764314P),
01 Oct 2009

Jayakumar S K (No. 14610074W now JC-764315X),
12 Oct 2009/01 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Gun

P Suresh Kumar (No. 14622214K now JC-764316A),
03 Oct 2009/01 Oct 2009*

Pramod Kumar Yadav (No. 14622229M now JC-
764317H), 07 Oct 2009/01 Oct 2009*

Mariappan V (No. 14622279X now JC-764318L), 06 Oct
2009/01 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Opto Electronic

D Rajendran (No. 14618389P now JC-764319N), 05 Nov
2009/01 Nov 2009*

Shigvan Prashant (No. 14618635P now JC-764320H),
04 Nov 2009/01 Nov 2009*

Azad Kumar Rai (No. 14618675W now JC-764321L),
01 Nov 2009

Subhash Kumar (No. 14618678K now JC-764322N),
01 Nov 2009

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Omveer Singh Soam (No. 14586587K now JC-
764323W), 01 Oct 2009

Yad Ram (No. 14586644A now JC-764324Y), 03 Oct
2009/01 Oct 2009*

Than Singh Rawat (No. 14586655M now JC-764325F),
01 Oct 2009

Guljar Singh (No. 14586812N now JC-764326K), 01 Nov
2009

Mahender Singh (No. 14586814Y now JC-764327M),
01 Nov 2009

Harbhajan Singh (No. 14586815F now JC-764328P),
01 Nov 2009

Hruda Nanda Swain (No. 14586151Y now JC-764329X),
01 Nov 2009

Gyanuddin Khan (No. 14594234Y now JC-764330M),
01 Dec 2009

Rajani Kanta Roy (No. 14605076X now JC-764331P),
01 Dec 2009

Hav to be Nb Sub PTR & Dectr

Satish Chandra (No. 14578442K now JC-764333A),
01 Oct 2009

Manoj Kumar (No. 14600093N now JC-764334H),
20 Oct 2009/01 Oct 2009*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Manoj Kumar Sahoo (No. 14583008F now JC-764335L),
13 Oct 2009/01 Oct 2009*

Ajit Singh (No. 14582788L now JC-764336N), 03 Oct
2009/01 Oct 2009*

Dinesh Goswami (No. 14583328W now JC-764337W),
03 Oct 2009/01 Oct 2009*

Raj Pal Hans (No. 14583255P now JC-764338Y), 19 Oct
2009/01 Oct 2009*

Virsha Singh (No. 14583361N now JC-764339F), 05 Oct
2009/01 Oct 2009*

Anirudhan B (No. 14583363Y now JC-764340W),
03 Oct 2009/01 Oct 2009*

*(Gtd ante dated seniority)

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Ram Bali (No. 14561203Y now JC-764178K), 03 Aug
2009/01 Aug 2008*

Preet Singh (No. 14557479X now JC-763398F), 20 Jul
2009/10 May 2009*

Hav to be Nb Sub Master Tech Elect

A N Singh (No. 14608743L now JC-763024L), 17 Aug
2009/01 Sep 2008*

Hav to be Nb Sub Machinist

Man Mohan Misra (No. 14564845Y now JC-764202P),
01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Opr & Dvr (Rec)

Kailash Chandra Samal (No. 14561774X now JC-764190L), 01 Aug 2009

K Chandra Palata Singh (No. 14561780L now JC-764191N), 08 Aug 2009/01 Aug 2009*

Sahidul Islam (No. 14561781N now JC-764192W), 01 Aug 2009

Haren Duarauih (No. 14561892L now JC-764193Y), 03 Aug 2009/01 Aug 2009*

Dhirendra Kumar (No. 14561930W now JC-764194F), 11 Aug 2009/01 Aug 2009*

Narendra Narayan Kanwar (No. 14561952P now JC-764195K), 01 Aug 2009

Labhalalo Keswara Rao (No. 14562247H now JC-764196M), 01 Aug 2009

Naskar Pal (No. 14559455M now JC-764197P), 05 Aug 2009/01 Aug 2009*

Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

S Rajaiya (No. 14583259L now JC-764198X), 01 Sep 2009

Rajender Yadav (No. 14578785A now JC-764199A), 01 Sep 2009

H S Yadav Chaudhary (No. 14581437K now JC-764200K), 01 Sep 2009

Ashok Waman Tambe (No. 14582312Y now JC-764201M), 01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub SKT

Chandraiah K (No. 14605092P now JC-764203X), 01 Sep 2009

Phool Chand (No. 14605120W now JC-764204A), 01 Sep 2009

Wahid Khan (No. 14605123K now JC-764205H), 01 Sep 2009

Madan Mohan Sarkar (No. 14600136X now JC-764206L), 01 Sep 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech B-Veh

Imrat Lal (No. 14619868H now JC-763954M), 16 Jun 2009/01 May 2009*

Madanjeet Singh (No. 14622029W now JC-764147K), 01 Aug 2009

Hav to be Nb Sub Master Tech Comm

A Raj Kumar (No. 14618499K now JC-764071P), 31 Oct 2009/01 Jun 2009*

Kshirsagar Vikas Shankar (No. 14617920F now JC-764055X), 24 Oct 2009/01 Jun 2009*

Hav to be Nb Sub Clk (SD)

Anand Singh (No. 14579883M now JC-764242W), 01 Sep 2009

Md Abdul Salam (No. 14579617N now JC-764261F), 01 Oct 2009/01 Mar 2009*

Jagdish Singh (No. 14584123N now JC-764263M), 01 Sep 2009

Balaram (No. 14584437P now JC-764264P), 11 Sep 2009/01 Sep 2009*

Prem Das (No. 14584456A now JC-764265X), 01 Oct 2009

Govind Singh (No. 14585438K now JC-764266A), 01 Oct 2009

Gordhan Ram Karel (No. 14585874F now JC-764267H), 01 Oct 2009

Krishan Singh (No. 14586315K now JC-764268L), 01 Oct 2009

Sudarsan Kumar (No. 14586317P now JC-764269N), 01 Oct 2009

Bidhan Chandra Nath (No. 14516046K now JC-764271L), 01 Oct 2009

Moti Lal (No. 14586559X now JC-764273W), 01 Oct 2009

Vijay Bahadur Singh (No. 14586445M now JC-764274Y), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Tech Radar

Krishna Nand Bhatt (No. 14569227X now JC-764248X), 01 Oct 2009

Krishan Singh (No. 14563261P now JC-764249A), 01 Oct 2009

Surendra Singh (No. 14564122X now JC-764250P), 05 Oct 2009/01 Oct 2009*

Suresh Kumar (No. 14574563N now JC-764251X), 01 Oct 2009

Joy Ram Charai Muria (No. 14561512F now JC-764252A), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech B Veh

Bhagwan Das Sahu (No. 14561527K now JC-764253H), 01 Oct 2009

Bankim Chandra Sahoo (No. 14561778N now JC-764254L), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Opto Elect

Arun Kumar Poddar (No. 14570492A now JC-764255N), 01 Oct 2009

Pradip Kumar (No. 14572205K now JC-764256W), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Auto Tech Elect B Veh
Lalman (No. 14559665M now JC-764257Y), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub Limbmaker

Muthu KM (No. 14578242N now JC-764258F), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub DTMN (Tech)

Methani Mallikarjuna Rao (No. 14562620X now JC-764259K), 01 Oct 2009

Hav to be Nb Sub SKT

Pawar Kisan Dattatraya (No. 14603836W now JC-764275F), 01 Oct 2009

Bijender Singh (No. 14605130A now JC-764276K), 01 Oct 2009

*(Gtd ante dated seniority)

N K KASHMIRA
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 358, dated 8th June 2010—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

RECORDS THE MIR

To be Nb Sub

Hav (DVRAFV) Jameel Ahmed (No. 14917214Y now JC-421501F), 27 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (GNRPT) Rakesh Kumar Verma (No. 14918366M now JC-421502K), 20 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav (DVRAFV) Mukalla Jagadeeswara Rao (No. 14918440H now JC-421503M), 20 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

Hav [Clk (SD)] Dilip Kumar (No. 14913919N now JC-421504P), 01 Feb 2010

Hav (GNRPT) Hasti Rawal (No. 14917092A now JC-421505X), 01 Feb 2010

Hav (DVRAFV) Chandrika Rai (No. 14918407L now JC-421506A), 01 Feb 2010

ARMED CORPS RECORDS

To be Nb Ris

DFR (DVR/GNR) Darab Singh Gurjar (No. 1088639L now JC-243794N), 02 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Aug 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) S Mahalingam (No. 1089780Y now JC-243930Y), 17 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Sep 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Sanjay Kumar Biswas (No. 1088192Y now JC-244133A), 08 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Bijender Singh (No. 1088389P now JC-244002P), 14 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Ganesh Prasad Patel (No. 1088495N now JC-244134H), 08 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Ramesh Chand Sharma (No. 1089177W now JC-244135L), 08 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Bhanwar Singh Gill (No. 15461987M now JC-244025W), 01 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Kunj Bihari (No. 1087763A now JC-244072N), 14 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/DVR) Sanjay Kumar Wani (No. 1099098P now JC-244073W), 01 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Netra Singh (No. 1099350H now JC-244131P), 10 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) John Bosco (No. 1099501W now JC-244130M), 11 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Digvijay Kumar Verma (No. 1099557H now JC-244136N), 12 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 11 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Pradeep Kumar Mishra (No. 1099560H now JC-244137W), 16 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 14 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Bhupender Singh (No. 1098753W now JC-244138Y), 11 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Prinjan Kumar (No. 109498F now JC-244132X), 01 Feb 2010*

DFR (DVR/GNR) Sukhjinder Singh (No. 15461855Y now JC-244114P), 15 Feb 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Feb 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Rajendar Singh (No. 15463997P now JC-244014K), 02 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Kuldeep (No. 15464249N now JC-244015M), 02 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 14 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Inderjit Singh (No. 1087632P now JC-243920P), 12 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Yeshpal Singh (No. 1098825P now JC-244016P), 06 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Apr 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Chandrapal Singh (No. 1088659Y now JC-244009Y), 06 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jul 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Tej Pal (No. 1084189F now JC-243933M), 16 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/DVR) Udham Singh (No. 1098829L now JC-244023L), 02 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Khushal Singh (No. 1099469M now JC-243989Y), 05 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Sukhbir (No. 15462233K now JC-244037L), 22 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Subhas Chandra BA (No. 1088424M now JC-244061F), 23 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/DVR) Pratap Singh (No. 1089767P now JC-243972L), 16 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Mohan Lal (No. 1089821X now JC-243973N), 16 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) V Devarajan (No. 1099474X now JC-244039W), 22 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Pawan Singh (No. 15461940F now JC-244038N), 24 Dec 2009*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Pawan Kumar (No. 1085827F now JC-244077M), 03 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Harpal Singh (No. 1087167N now JC-244045K), 01 Jan 2010

DFR (DVR/OPR) Salwinder Singh (No. 1087230X now JC-244046M), 01 Jan 2010

DFR (DVR/GNR) Aziz Ali (No. 1087705W now JC-244049A), 04 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Sarvjeet Singh (No. 1088754L now JC-244044F), 01 Jan 2010

DFR (OPR/GNR) Aji Kumar K S (No. 1089361F now JC-244012Y), 01 Jan 2010

DFR (GNR/DVR) S Rama Moorthy (No. 1089571F now JC-243975Y), 01 Jan 2010

DFR (GNR/DVR) Mohinder Singh (No. 1089583W now JC-243976F), 01 Jan 2010

DFR (DVR/GNR) Prabhati Lal (No. 1089596N now JC-244013F), 01 Jan 2010

DFR (OPR/GNR) Mohan Singh (No. 1089673X now JC-244054L), 01 Jan 2010

DFR (DVR/GNR) Yashraj Singh (No. 1089747F now JC-244055N), 01 Jan 2010

DFR (DVR/GNR) Balwinder Singh (No. 1089851P now JC-244048X), 02 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/DVR) Bhagwant Singh (No. 1089898A now JC-243977K), 01 Jan 2010

DFR (OPR/DVR) Amar Singh (No. 1098666H now JC-244040L), 01 Jan 2010

DFR (DVR/OPR) Bhargavendra Sing (No. 1098820W now JC-244001M), 01 Jan 2010

DFR (GNR/DVR) Mahendera Singh (No. 1099080Y now JC-244071L), 02 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Ranbir Singh (No. 1099335N now JC-243978M), 07 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Manjeet Singh (No. 15461544L now JC-244076K), 03 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) V Kumaresan (No. 15462717K now JC-244051X), 01 Jan 2010

DFR (GNR/OPR) Sanjeev Kumar (No. 15462932P now JC-244052A), 08 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Karamjit Singh (No. 15463657M now JC-244041N), 01 Jan 2010

DFR (DVR/OPR) Brahm Prakash (No. 1088357M now JC-243945F), 10 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Jarnail Singh (No. 1088924K now JC-244056W), 07 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Jasvir Singh (No. 1098739K now JC-244065X), 03 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/OPR) Rakesh Kumar (No. 15463276L now JC-244057Y), 07 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Man Mohan (No. 15463385X now JC-244058F), 13 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Rajesh Kumar (No. 15463928Y now JC-244059K), 07 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Rakesh Kumar (No. 15464022A now JC-244060Y), 07 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Ravinder Lal (No. 1085033W now JC-244068L), 11 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 10 Oct 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Kuldeep Singh (No. 1089615N now JC-243961Y), 09 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Hoshiar Singh (No. 1098855M now JC-244026Y), 13 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (GNR/DVR) Gurmit Singh (No. 15461063Y now JC-244095P), 05 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Nov 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Mukesh Kumar (No. 1099184A now JC-244070H), 05 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 06 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (OPR/GNR) Dadu Lal (No. 1089893F now JC-244098H), 08 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 29 Dec 2009 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Rati Ram (No. 1087756K now JC-244029M), 01 Jan 2010

DFR (DVR/GNR) Raj Karan (No. 1089616W now JC-244101X), 12 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/GNR) Surendra Singh RA (No. 1098720L now JC-244103H), 05 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (DVR/OPR) Om Prakash (No. 1099441M now JC-244074Y), 03 Jan 2010*

*(Granted Seniority in the Rank of Nb Ris wef 01 Jan 2010 without effect on pay and allowances)

DFR (GMR/DVR) Shymon Mathew (No. 1099576N now JC-244030F), 01 Jan 2010

J ROY CHOWDHARY
Under Secy

ARMY BRANCH

MUKHYA PRASHASAN ADHIKARI KA KARYALAYA

No. 359, dated 9 Jun 2010—The President is pleased to promote Shri NK Vasisht, Private Secretary (DOB: 01 May 1959) of (Group 'B' Gazetted) of AFHQ Stenographic Service as Principal Private Secretary (Group 'A' Gazetted) on regular basis, in Pay Band-III, Rs. 15,600—39,100 with Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 16 Feb 2009.

AK LAROIYA
Dy CAO (A)

ARMY BRANCH

No. 360, dated 9 Jun 2010—The President is pleased to permit the undermentioned officer relinquish his/her short service commission in the Army Medical Corps wef 06 Dec 2000 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

CORRIGENDUM

The date of SENIORITY FOR PAY AND PROMOTION in respect of Capt Shiv Kumar Gautam (MR-07670-K), AMC at the gazette notification published on 09 Nov 2002 is amended as follows :—

FOR :—with seniority for pay and promotion from
31 Nov 1996

READ :—with seniority for pay and promotion from
30 Nov 1996

Brig YASH PANDE
Dy DG AFMS (HR)

No. 361, dated 9 Jun 2010—The President is pleased to retire Shri AK Sood, Section Officer (DOB : 02.03.1950 & Select List (Seniority Quota)-2003) Ministry of Defence from Government Service with effect from 31.03.2010 (AN) on attaining the age of superannuation.

K MURALI
Under Secy

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 362, dated 9 Jun 2010—Consequent upon attaining the age of superannuation Smt Amarjit Kaur Kohli, TO 'C', Dte of ER & IPR, DRDO HQ retired from service with effect from 31 Mar 2010 (AN) and transferred to pension establishment with effect from 01 Apr 2010 (FN).

BB SHARMA
Joint Director (Pers-1)

CORRIGENDUM

No. 363, dated 10 Jun 2010—In Ministry of Defence Notification of even number dated 5.10.2009 appointing officers of this Ministry to the grade-I of CSS (Under Secretary) for the year 2003 in Sl. No. 2 against the name of Shri V. K. Sharma CSL No. 4232) the actual date of appointment i.e. 25.3.2004 May be read as 20.8.1999.

In Ministry of Defence Notification of even number dated 8.2.2009 appointing officers of this Ministry to the grade I of CSS (Under Secretary) for the year 2004—2008 the actual date of Notification i.e. 8.2.2009 may be read as 8.02.2010.

K. MURALI
Under Secy.

ARMY BRANCH

CORRIGENDA

Lt to be Capt

No. 364, dated 10 Jun 2010—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 202/2001 published on 14 Apr 2001 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendment is made against IC Nos.-58561, 58562, 58563, 58564, 58566, 58567, 58568, 58569, 58570, 58571, 58572, 58573, 58574, 58575, 58577, 58578, 58579, 58580, 58581, 58582, 58583, 58584, 58586, 58587, 58588 & 58589 :—

For : 08 Dec 2000

Read : 12 Dec 2000

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 270/2002 published on 04 May 2002 under heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendments are made against IC Nos.-59534, 59535, 59536, 59537, 59538, 59539, 59541, 59542, 59543, 59544, 59545, 59546, 59547, 59548, 59549, 59550, 59551, 59552, 59553, 59554, 59555, 59556, 59557, 59558, 59560, 59561, 59562, 59563, 59564, 59565, 59566, 59567, 59568, 59569, 59570, 59573, 59574, 59575, 59576, 59577, 59578, 59579, 59580, 59581, 59582, 59583, 59584, 59585, 59586, 59587, 59588, 59589, 59590, 59591, 59593, 59594, 59595 & 59598 :—

For : 07 Dec 2001

Read : 11 Dec 2001

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 20 Mar 2004 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendments are made against IC Nos.-59540, 59571, 59572, 59592 & 59597 :—

For : 07 Dec 2001

Read : 11 Dec 2001

"Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" the following amendments is made against IC Nos.-59559 :—

For : 07 Dec 2001

Read : 11 Dec 2001

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 89/2005 published on 12 Feb 2005 under the heading

JASWANT SINGH
Jt. Director
MS-8C